

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2019—आषाढ़ 28, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2019

क्र. ई-5-991-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिल सुचारी, आयएस. (2006), सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 17 जून से 6 जुलाई 2019 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल सुचारी, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल सुचारी, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल सुचारी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2019

क्र. एफ 1(ए) 20-2006-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, 99, पुलिस महानिरीक्षक, समन्वय अअवि, पुमु, भोपाल को दिनांक 24 से 29 जून 2019 तक, कुल छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक समन्वय अअवि, पुमु, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2019

क्र. एफ 1(बी) 10-2018-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2017 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- (साँतवे वेतनमान में लेवल-12 रु. 56100-177500/-) में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :-

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित अनुपूरक सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	02	श्री अमन मिश्रा, आत्मज श्री परशुराम मिश्रा, 63, अमन स्कूल, गुरुदेव कालोनी, वेदीनगर, जबलपुर, म. प्र. 482001.	कटनी

(1)	(2)	(3)	(4)
2	03	सुश्री प्रतिभा शर्मा, सुपर डीलक्स ए-209, सागर ऐवेन्यू अयोध्या बायपास, भोपाल म. प्र. 462041.	राजगढ़
3	15	श्री विलमेश उईके, 341, मालवीय वार्ड क्रमांक 04, खंजनपुर, गोन्दीपुरा, बैतूल, म. प्र. 460001.	हरदा
4	18	सुश्री वर्षा सोलंकी, ग्राम व पोस्ट चाचरिया पाटी, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी, म. प्र. 451666.	खरगौन

(2) नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम-4 में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रथम चरण का बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जायेगा.

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(6) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने

पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(8) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(9) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(10) नवनियुक्त अधिकारियों जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(11) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

क्र. एफ 1(बी) 10-2018-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2017 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित

निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- (सातवे वेतनमान में लेवल-12 रु. 56100-177500/-) में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	05	श्री अतुल कुमार सोनी, ग्राम व पोस्ट न्यू देवराज नगर, तहसील रामनगर जिला सतना, म. प्र. 485881.	निवाड़ी

(2) नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम-4 में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

(3) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रथम चरण का बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिला में पूर्ण किया जायेगा।

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(5) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(6) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि वे अपने

पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(8) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(9) परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(10) नवनियुक्त अधिकारियों जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जाच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(11) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2019

फा. क्र. 17(ई) 67-2008-3537-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवायें श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम तथा पद	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री राम प्रकाश अहिरवार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रीवा.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय रीवा (रिक्त न्यायालय).
2	श्री मुकेश गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, चुरहट, जिला सीधी.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय सीधी (रिक्त न्यायालय).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

संशोधन आदेश

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2019

फा. क्र. 3754-इक्कीस-ब(दो)2019.—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जुलाई 2018 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:—

'श्री वैभव जैन, अधिवक्ता, इन्दौर विशेष लोक अभियोजक का मासिक पारिश्रमिक राशि 40,000/- के स्थान पर मासिक पारिश्रमिक राशि 55,000/- पढ़ा जाये'.

फा. क्र. 3754-इक्कीस-ब(दो) 2019.—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जुलाई 2019 द्वारा नियुक्त श्री वैभव जैन, अधिवक्ता, इन्दौर को कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 12 जुलाई 2019 से उन्हें माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इन्दौर में विचाराधीन विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु अतिरिक्त विशेष शासकीय अधिवक्ता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक, मासिक पारिश्रमिक राशि 55,000/- पर नियुक्त करता है. उक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे. पारिश्रमिक एवं व्यय का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2019

क्र. एफ-2-11-2004-एस.एण्डटी.-इकतालीस-1.—मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के सेवा भर्ती के नियम 2013 के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य शासन एतद्वारा डॉ. अरूणा सक्सेना, Professor & Head, Training, Placemnet & Students Welfare Cell of Maulana Azad National Institute of Technology, भोपाल को निम्नांकित सेवा शर्तों पर महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल के पद पर नियुक्त करता है:—

- (1) नियुक्ति, आदेश जारी होने के दिनांक से 02 वर्ष के लिए होगी.
- (2) महानिदेशक को विश्वविद्यालय के कुलपति के समान वेतन तथा अन्य भत्ते देय होंगे.
- (3) महानिदेशक को मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के सेवा नियमों के अनुसार वाहन, आवास एवं अन्य सुविधाएं देय होंगी.
- (4) महानिदेशक को राज्य शासन के प्रचलित नियम के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा देय होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्दा भलावे कुशरे, उपसचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2019

क्र. 774-आर-833-19-पचपन-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-25-75-17-मेडि-2, दिनांक 4 जुलाई 1963 तथा ए-8-46-2005-3-पचपन, दिनांक 26 जून 2006 एवं मेडिकल मैनुअल (संशोधित प्रकाशन 1940) के पैरा 476 में निम्नानुसार संशोधन करता है.

संशोधन

इस विभाग के अधीन चिकित्सा/दंत महाविद्यालय तथा चिकित्सालयों के आंतरिक रोगियों के लिये चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर 2014 द्वारा निर्धारित भोजन पर होने वाला व्यय राशि रु. 44.00 से बढ़ाकर राशि रु. 48.00 (रुपये अड़तालीस मात्र) प्रतिदिन आंतरिक रोगियों के लिए निम्न तालिका

अनुसार निर्धारित करता है:—

क्र. (1)	स्वीकृत आहार (2)	मात्रा ग्राम में (3)	कीमत राशि रु. में (4)
1	चावल/दलिया/आटा	400	12.00
2	दाल	85	6.00
3	हरी सब्जी	114	2.50
4	सलाद	85	1.25
5	सब्जी मसाला	85	2.75
6	फल	85	3.20
7	दूध	241	6.80
8	शक्कर/गुड़	57	2.50
9	घी/तेल	57	5.75
10	ईंधन	1000	5.25
			योग . . . 48.00

यह स्वीकृति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 625-आर-717-चार-ब-6-18, दिनांक 28 सितम्बर 2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शर्मिला ठाकुर, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2019

क्र. एफ-5-07-2019-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 शासन को प्रस्तुत अपील/पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई के लिए प्रत्यायोजित किए जाने वाले अधिकार संबंधी आदेश दिनांक 1 फरवरी 2017 एतद्वारा निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश पंचायत (अपील तथा पुनरीक्षण) नियम 1995 के नियम 3 एवं 5 के प्रावधानों एवं सहपठित मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम के भाग 5 के नियम 13 के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदेश की कंडिका 2(ए) के अन्तर्गत राज्य शासन को प्रस्तुत किये जाने वाले अपील/पुनरीक्षण प्रकरणों की सुनवाई एवं उन पर निर्णय सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2019

क्र. एफ-1-1-19-रा.स.-यू.ए.1-1512.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

- | | | | |
|----|--|------------------|--|
| 1. | प्रो. संगीता शुक्ला,
कुलपति,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म. प्र.). | समिति के अध्यक्ष | कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित |
| 2. | प्रो. एच. सी. एस. राठौर,
कुलपति,
दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
ग्राम-करहारा, पोस्ट-फतेहपुर,
पी. एस.-टेकरी, जिला-गया (बिहार)
पिन-824236. | समिति के सदस्य | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग द्वारा नामांकित. |
| 3. | श्री राजेन्द्र शुक्ल,
पूर्व मंत्री एवं विधायक,
रीवा विधान सभा, अमहिया,
रीवा (म. प्र.). | समिति के सदस्य | कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित |

(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. संगीता शुक्ला, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के आदेशानुसार,

मनोहर दुबे, राज्यपाल के सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 12 जुलाई 2019

सार्वजनिक सूचना
(आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति)

क्र. भू-अर्जन-2019-नस्ती क्र. 10-2019-एलए.—राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12-2-2014-सात-ए-दिनांक 12 नवम्बर 2014 (म. प्र. राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” जारी की गई है.

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम भारत सरकार रेल मंत्रालय की इन्दौर-अकोला रेलवे लाईन अमान परिवर्तन कार्य में प्रयोग हेतु विद्युत् पारेषण केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु प्रभावित ग्राम सुलगांव की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका निवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भू-स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि/मकान का विवरण

जिला-खण्डवा, तहसील पुनासा, प.ह.नं. 10, ग्राम सुलगांव, रा.नि. मंडल मांधाता

प्रभावित रकबा : 0.560 हेक्टेयर

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	प्रभावित रकबा (हे. में)	सिंचित रकबा (हे. में)	असिंचित रकबा (हे. में)	अन्य संपत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मकबूलबाई बेवा यशवंतसिंह, अनिताबाई, मंजुबाई, धनकुंवरबाई पुत्री यशवंतसिंग नारायणसिंह, दिनेश सिंग पिता यशवन्त सिंह, पिता जालमसिंह, निवासी ग्राम सुलगांव.	756/1	1.68	0.560	0.560	0	0

तन्वी सुंदरियाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. अ-82-2019-2020

अलीराजपुर, दिनांक 24 जून 2019

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(क्रमांक 30 सन 2013)

प्र.क्र. /अ-82/2019-2020

चूक राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में छोटा उदयपुर -धार रेलवे लाईन हेतु ग्राम सेजा तहसील अलीराजपुर जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

-----:: अनुसूची (01) ::-----			
ग्राम सेजा		तहसील अलीराजपुर	
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टरयर में)	
1	निजी भूमि	सिंचित	असिंचित
1		0.57	0.49
			कुल रकबा
			1.06

-----:: अनुसूची (02) ::-----

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टरयर में)		
		खसरा क्रमांक	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	श्री शंकरसिंह पिता गुलाबसिंह	109/2	0.0	0.45	0.45	0.00	0.02	0.02
2	श्री केमता पिता रेन्दला	130/3	0.0	0.18	0.18	0.00	0.06	0.06
3	श्री माधु, काजू, राजु पिता नानला व आहबाई बेवा नानला	131/5	0.0	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10
4	श्री मगनीया, इडला पिता इन्दरसिंह, नाहली बेवा इन्दरसिंह	140	0.0	1.27	1.27	0.00	0.09	0.09
5	श्री भंगडिया पिता गमिर	178/1	0.4	0.00	0.40	0.30	0.00	0.30
6	श्री भगु पिता देसिंह	305/1	0.20	0.00	0.20	0.12	0.00	0.12
7	श्री कुशलसिंह, छत्तरसिंह, सज्जन बाई, तारा बाई रंजना, पिता गणपत फन्दुबाई बेवा गणपत	274/1	0.48	0.00	0.48	0.15	0.00	0.15
8	श्री दुलेसिंह पिता देसिंह	142/2 पे.	0.0	0.32	0.32	0.00	0.01	0.01
9	श्री छगन पिता देसिंह	142/3	0.0	0.32	0.32	0.00	0.06	0.06
10	श्री करमसिंह पिता देसिंह	142/4	0.0	0.32	0.32	0.00	0.06	0.06
11	श्री जितेन्द्र, सचिन, प्रविण पिता भेरमसिंह	142/5	0.0	0.32	0.32	0.00	0.05	0.05
12	श्री गेमला पिता प्रेमसिंह	142/6/1	0.0	0.11	0.11	0.00	0.01	0.01
13	श्री प्रेमसिंह पिता देसिंह	142/6/2	0.0	0.22	0.22	0.00	0.02	0.02
14	श्री कुवरसिंह पिता डुगरिया	143/2 पे.	0.0	0.10	0.10	0.00	0.01	0.01
	कुल योग :-		1.08	3.71	4.79	0.57	0.49	1.06

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरभि गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 09-अ-82-19-20-4997.—

सागर, दिनांक 26 जून 2019

नेतना पटवारी हल्का नं. 0060 तहसील मालथौन

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-

बांध सिंचाई परियोजना बण्डा बांध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला

सागर

2. तहसील

मालथौन

3. ग्राम

नेतना

4. पटवारी हल्का नं.

60

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

49.480 Ha

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा	शेष रकबा
1	मोतीलाल सीतारामपिता जज्जू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	589	0.980	0.980	
2	लटकारी बेवा मोहन सेवकनंदू रामदास पिता मोहन गज्जू पिता छुट्टे पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	590	1.510	1.510	
3	मौजीलाल पिता रामलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	626	0.900	0.900	
4	पकाश कुमार पिता शकरलाल पार्वती बेवा शकरलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	627	0.400	0.400	
5	सीताराम नर्मदाप्रसादग्याप्रसाद शिवप्रसाद द्वारकाप्रसाद पिता मोहनलाल भूमि स्वामी बड़ीबिन्ना उर्फ सूरजबाईशारदाबाई गायत्रीबाई पुत्री मोहनलाल रामलाल पिता लक्ष्मणप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	629/1	0.050	0.050	
6	अनंदी पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	629/2	0.800	0.800	
			565	0.600	0.600	

7	सैमकली प्रेमबाई पिता बल्ला बिहारी ना0 बा0 मीरा राम पिता मुलुवा महेश कलू शंकर पिता गुलाब लक्ष्मीबाई बेबा गुलाब सुदामा बाई भामाबाई गोमती गंगाबाई पुत्रीगुलाब भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	630/1	0.350	0.350	
8	नन्ना पिता मुलू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	630/2	0.220	0.220	
9	कल्लू पिता गुलाब पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	630/3	0.320	0.320	
			634	0.520	0.520	
10	रामगोपाल पिता जूजे भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	631/1	0.540	0.540	
11	मंगल पिता धरमू भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	631/2	0.260	0.260	
12	तुलसीराम पति हिम्मतरुदल ना.वा. पिता काशीराम अनीताबाई सविताबाई पुत्रीकाशीराम भूमि स्वामी हल्कीबहू बेवा काशीराम पता सा. इमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	632/1	0.410	0.410	
13	नत्थू पुत्र तांतू पता सा. इमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	632/2	0.400	0.400	
14	द्वारकाप्रसाद पितामोहनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	633	1.230	1.230	
15	महेश पिता गुलाब सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	635	0.450	0.450	
16	लछमन अजुध्दी वंशीदयाराम पिता मर्दन शारदाबाईग्याबाई पुत्री मर्दन पता सा. देह भूमि स्वामी मुन्नीबाई बेबा छोटेलाल संतोष संतोषी ना वा बल्द छोटेलाल बली मां मुन्नीबाई बेवा छोटेलाल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	636	0.810	0.810	
17	नेमचन्द पिता जमनाप्रसाद पता सा बादरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	637/1	0.090	0.090	
			657	0.480	0.480	
			658	0.750	0.750	
			662	0.610	0.610	
			663/1	0.660	0.660	
18	कमलादेवी पति महेन्द्रकुमार पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	637/2	0.430	0.430	
			640	0.420	0.420	
19	फूलसींग पिता सूरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	639	0.390	0.390	
			640	0.420	0.420	
20	गुबन्दी तुलसीराम पिता मोहन नन्हेभाई रगवीर पिता मर्दन अनन्दी दमरी पि. गुलाबबाई वेवा तिजिया रामवती प्रभा सिया पुष्पापुत्री तिजिया लछमन अनन्दी पिता हरीराम राम परताप पिता नन्दलाल अमना पित मुलूहरवान पिता भरोसी ताराबाई ममताबाई रजनी पिता भरोसी पता सा. देह भूमिस्वामी प्रेमरानी बेवा भरोसी राहुल छोडु नाबा पिता कल्लूपा मा बडी बहू बेवा कलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	641/1	0.480	0.480	
21	धर्मदीप नीरज पिता महेन्द्रकुमार पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	641/2	0.400	0.400	
22	महेन्द्र कुमार पिता ईश्वरीप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	642	1.700	1.700	
23	खिलानसींग सूरतसींगराजाराम कोमलसींग जनकसींग पिता देवसींग जीराबाईप्यारीबाई पुत्री देवसींग पता सा इमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	643	1.190	1.190	

24	श्रीदेव श्री-श्री 108 श्रीदेव रामचन्द्रजी हाजा मु. महेन्द्र सिंह प्रबुधक कलेक्टरमहोदय सागर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	644	1.030	1.030	
25	गुलाबचन्द पिता जमनाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	659	0.540	0.540	
			660	0.690	0.690	
26	पभाबाई पति नेमचन्द पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	661/1	1.070	1.070	
27	नन्हेभाई पिता मानसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	661/2	0.530	0.530	
28	गिरवरसीग पिता मर्दनसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	664/1	0.580	0.580	
			666/1	0.320	0.320	
29	दुरगसीग वल्द लोकसीग पता सा इमलियाखुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	664/2	1.160	1.160	
			666/4	0.620	0.620	
30	महराजसीग पिता लोकसीग पता सा इमलियाखुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	664/3	0.250	0.250	
			666/6	0.270	0.270	
			682/1	0.350	0.350	
			683	0.910	0.910	
31	राजेन्द्रसीग पिता लोकसीग पता सा. इमलियाखुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	664/4	1.160	1.160	
			666/5	0.630	0.630	
32	भगवानसीग पिता मद्रन सीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	664/5	0.580	0.580	
			666/8	0.310	0.310	
33	गोविन्दसीग हरीसीग नन्हूसीग पिता मानसीग धीराबाई बेवा मानसीग पता सा इमलियाखुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	666/2	0.310	0.310	
			677/1	0.230	0.230	
34	गोटीराम नाबा0 पिता व पालक वीरसीगज्ञानसीग नाबा0 पिता व पालक भगवानसीग पता सा इमलियाखुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	666/3	0.800	0.800	
			674	1.130	1.130	
			678/2	0.400	0.400	
35	वीरसीग भगवानसीग पिता खिलानसीग पता सा इमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	666/7	0.240	0.240	
			673/3	0.400	0.400	
			673/4	0.200	0.200	
			673/5	0.200	0.200	
36	लाइले मुन्ना धनसीग कनई पिता भगोली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	673/1	0.420	0.420	
37	आकाश पाित अनिल कुमार जैन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	673/2	0.400	0.400	
38	जगदीश देवकीनन्दन पिस मगल पता सा. इमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	667	0.830	0.830	
39	करुणेश पति राधेश्याम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	668	1.220	1.220	
			669	0.320	0.320	
40	जगन्नाथ पिता बिहारी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	670	0.950	0.950	
41	उमराव हरपाल पितापंचा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	671/1	0.500	0.500	
42	लक्ष्मीबाई पति लक्ष्मनसीग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	671/2	0.500	0.500	

43	जाहरसींग हरीसींग लछमनसींगपिता रतनसींग काशीबाई कर्नारीबाई गोपीबाईरमकोबाई पुत्री रतनसींग भूमि स्वामी नन्हीबहु बेवा रतनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	672/1	0.070	0.070
44	लछमनसींग पिता रामसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	672/2	0.380	0.380
45	राघवेन्द्र रामराजा पिता दुरग सिंह पता सा. इमलियाखुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	675/1	0.470	0.470
			675/2	0.480	0.480
			677/2	0.500	0.500
46	आकाश पिता अनिल कुमार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	678/1	0.700	0.700
47	प्रहलादसींग पिता रतनसींग पता सा. इमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	680/1	0.500	0.500
48	भगतसींग पिता रतनसींग पता सा. इमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	680/2	0.020	0.020
			685	1.220	1.220
49	अनिलकुमार पिता शीलचद जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	682/2	0.200	0.200
			684/2	0.350	0.350
50	मन्जुवा हल्का धुरका पितामुलू रामबाई बेवा मुलू पता सा. इमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	684/1	0.330	0.330
51	सुकला पिता हरलाल पता सा. देह भूमि स्वामी रविशंकर पिताकन्हैयालाल पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	686	1.140	1.140
52	रनवीरसींग पिता मलखान सींग सावित्रीबाईवेवा मलखान सींग पता सा इमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	687	0.360	0.360
53	रधीरसींग पिता गुमान सींगलोधी पता सा. खिरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	688/1	2.150	2.150
54	विजयसींग पिता नत्थूसींगलोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	688/2	0.400	0.400
55	उजयार सींग कोमलसींगपिता बल्दवानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	682/3	0.140	0.140
56	राजू पिता पचे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	663/2	0.240	0.240
57	मायादेवी पति अनिल कुमार सा. बांदरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	681	0.560	0.560
			672/697	0.080	0.080
58	कमलरानी पति कलयान भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	663/3	0.340	0.340
योग			86	49.480	49.480

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिन् श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन, विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिन् श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन में आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 10-अ-82-19-20-4998

सागर, दिनांक 26 जून 2019

गाम-मुडिया गुसाई पटवारी हल्का नं. 061 तहसील मालथौन

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/383/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-

बण्डा परियोजना बण्डा बांध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पटवारी हल्का नं.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

सागर
मालथौन
मुडिया गुसाई
061
134.070

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	नन्नीबाई काशीबाई पुत्री सलके भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8\1	0.400	0.400	
2	चत्तूभाई पिता करन सींग पता निवासी ग्राम भूमि	भूमि स्वामी	8\2	0.400	0.400	
3	बाबूलाल पिता झबू आदिवासी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8\3	0.810	0.810	
4	शांतिबाई पति चत्तूभाई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8\4	0.400	0.400	
5	भामाबाई पति देशराजसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8\5	0.660	0.660	
6	रायसींग पिता विजयसींग पता सा. इमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11\2	0.990	0.990	
			11\3	0.490	0.490	
7	अमरसींग पि. किशनसींग पता सा. इमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11\1	0.98	0.98	
			23-	0.630	0.630	
8	जोरावल रज्जू कनई पिस. फदाली पता सा. इमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20	0.880	0.880	
9	कोमलसींग पिता देवसींग पता सा. उमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	1.120	1.120	

10	रमेश पिता पंचम सींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25	1.07	1.070	
11	पूरेन रेखा श्रीराम पुत्रभदैया भागवती रामकली मुन्नीबाई गोरा बाई पुत्री भदैया नीमाबाई वेबा पुन्ना भूमि स्वामी हरपा लछुआ पि. मुन्नापानबाई श्यामबाई द्रोपती बाई पुत्री पुन्ना मोहनलाल बारेलाल पि. सुक्का भूमि स्वामी मायाबाई तेजाबाई ना. वा. पुत्री परमोला पा. मां खुद हल्कीबहू वेवा परमोलासरस्वती बाई वेवा पिरुवा भूमि स्वामी कुन्दन बलराम पि. पिरुवाचौदा पि. गनुवा मिहीलाल शिवलाल पि. नथुवा गोराशिवबाई संजलीबिन्ना 1 भाग भूमि स्वामी पुत्री नथुवा तरेसिया वेवानथुवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26\1	2.730	2.730	
12	हरपा लहुवा गोरेलाल पिता पुन्ना सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26\2	0.580	0.580	
			61/1	0.550	0.550	
			163	0.740	0.740	
13	दरयाब सिंह पिता हम्मीर सिंह पता सा. पहरगुवां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	27	0.650	0.650	
14	भगवत पुरी पिता रल्लीपुरीखिलान पुरी शंकरपुरी पि. पूरनपुरी शिवचरण ना.वा. पिता सोमपुरी गीतादेवी वा. भूमि स्वामी साधना देवी ना. वा. पुत्रीसोमपुरी पा. मां कमलरानी वेवा सोमपुरी बृतपुरीबालपुरी पि. बडेपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28\1	1.370	1.370	
15	निखलेश पुरी पिता देवी पुरी सा. पहरगुबा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28\2	0.190	0.190	
16	दिनेशपुरी पिता अवधपुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30\1	2.220	2.220	
17	खिलानपुरी पिता हल्के पुरी पता सा.देह भूमि स्वामी खिलानपुरी पिता हल्केपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30/2	1.720	1.720	
			87/5	0.500	0.500	
			96/5	0.770	0.770	
			145/3	0.040	0.040	
			159/2	0.060	0.060	
18	शंकरपुरी पिता हल्केपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30\3	2.580	2.580	
			87/6	0.500	0.500	
			140/5	0.460	0.460	
			140/6	0.460	0.460	
			145/4	0.040	0.040	
			200/5	0.640	0.640	
			275/3	0.300	0.300	
19	जितेन्द्रपुरी. वल्देवीपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30\4	0.800	0.800	
			204	0.020	0.020	
			205	0.600	0.600	

20	दीपकपुरी पिता अवधपुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30\5	2.230	2.230	
21	नत्थूसीग पि. गनेशसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31	0.360	0.360	
			32	0.550	0.550	
			82/4	0.320	0.320	
			133\2	0.020	0.020	
			170	0.670	0.670	
			171/2	0.340	0.340	
			175	0.200	0.200	
			273/2	0.620	0.620	
22	संतोषपुरी सोनपुरी कस्तूरी सुशीला उर्मिला कृष्णाबाई सरोजबाई पिता बृजपुरी पता सा देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	33/1	0.930	0.930	
23	शंकरपुरी पिता हल्के पुरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/2	0.400	0.400	
24	बीरसीग पिता कोमलसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	37	0.840	0.840	
			55	0.460	0.460	
			180 / 1	0.210	0.210	
			183 / 2	0.270	0.270	
25	आधारसीग हरिसीग जगतसीग रतनसीगसरदारसीग पिता रामसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39	0.780	0.780	
			40	1.680	1.680	
			41	0.640	0.640	
			63	0.200	0.200	
			118	0.130	0.130	
			148	0.110	0.110	
			164	1.080	1.080	
			167	3.0400	3.0400	
			202	1.0300	1.0300	
			276	0.0300	0.0300	
			277	0.0400	0.0400	
			279	1.5400	1.5400	
			281	0.0400	0.0400	
283	1.150	1.150				
26	बलराम पिस. पिरुवासरस्वती बाई वेवा पिरुवा मोहनलाल पि. सुक्काराजा रामबाबू पिता कुंदन सुम्माबाई बेबा कुंदन पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	52	1.140	1.140	
27	गज्जू पिता दरयाव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53	0.480	0.480	
			57	0.140	0.140	
			177/3	0.070	0.070	
			180/3	0.100	0.100	
			183/4	0.300	0.300	

28	रमेश पिता उददी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54	0.280	0.280	
			151	0.030	0.030	
			156	0.030	0.030	
			174	0.700	0.700	
			178	0.240	0.240	
			179	0.280	0.280	
			187	0.350	0.350	
			217	0.270	0.270	
			263	1.280	1.280	
			282	0.030	0.030	
29	शीतल पिता दरयावसीगयादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58	0.140	0.140	
30	देवीसीग वहादुर सीग पिता गंधव सीग शिवरानी वेवा गंधव सीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59	0.230	0.230	
			149	0.020	0.020	
			154	0.020	0.020	
			181	0.150	0.150	
			182	0.280	0.280	
			220	0.230	0.230	
			222	0.220	0.220	
31	भुजवल सीग पि. सुकसीग पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	62	1.030	1.030	
			98	0.230	0.230	
32	राजेन्द्र पिता कपूरचन्द्र	भूमि स्वामी	64/1	1.620	1.620	
33	गोरीबाई उर्फ पदसूता जोजेभुजवल सीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64/2	1.620	1.620	
34	भगवतपुरी पिता रल्लीपुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65	0.640	0.640	
			130	0.050	0.050	
			131	0.120	0.120	
			145/2	0.040	0.040	
			159/1	0.130	0.130	
			209	0.050	0.050	
			210	1.250	1.250	
			275/1	0.610	0.610	
35	रंधीरसीग बीरसीग भगवानसीग पिस. धनश्याम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	66	1.730	1.730	

36	कैमलेशपति लक्ष्मण पुरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67	0.680	0.680	
			99/1	0.020	0.020	
			103/1	0.030	0.030	
			120/1	0.030	0.030	
			123/1	0.010	0.010	
			270/1	0.640	0.640	
			293/1	0.180	0.180	
			294	0.120	0.120	
			299/1	0.070	0.070	
37	अर्जुनसींग पिता गोविन्द सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68	0.810	0.810	
			213/3	0.310	0.310	
38	प्रतापसींग तुलसीरामनारायणसींग रगवीरसींग पि. उमरावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69	0.850	0.850	
			95	1.350	1.350	
			111	0.090	0.090	
			114	0.150	0.150	
			161	0.320	0.320	
39	उमद टीकाराम नंदराम पिता मुलु भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70	0.830	0.830	
40	जानकीबाई पति लखनपुरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71	0.640	0.640	
			101	0.120	0.120	
			102/2	0.060	0.060	
			125/2	0.020	0.020	
			198/4	0.350	0.350	
			223/2	0.510	0.510	
			224/2	0.050	0.050	
			247/2	0.370	0.370	
			268/2	0.200	0.200	
292	0.600	0.600				
41	लखनपुरी पिस. बाबूपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72	0.650	0.650	
			73	0.020	0.020	
			115	0.070	0.070	
			124	0.020	0.020	
			297	1.100	1.100	
42	उमद टीकाराम पिता मुलू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74	0.460	0.460	
			75	0.040	0.040	
			78	0.740	0.740	
43	धीरजसींग पिता भैयालाल अमोलसींग पिताअनतसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76	0.160	0.160	
			77	0.590	0.590	
			83	0.060	0.060	
			108	0.050	0.050	
			144	0.030	0.030	
			278	1.490	1.490	
			303	0.160	0.160	

44	पूरन रेवाराम श्रीराम पिस. मदूरा भागवती कलावती मुलाबाई जीराबाई पुत्री मदूरासीताबाई वेबा मदूरा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	79	0.890	0.890	
45	मगल पिता फूलसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	82/1	0.660	0.660	
			133/1	0.020	0.020	
			171/1	0.440	0.440	
			208/1	0.660	0.660	
			213/1	0.760	0.760	
46	रूपसीग पि. महाराजसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	82/2	0.140	0.140	
			85	0.260	0.260	
			271	0.030	0.030	
			272	0.570	0.570	
47	शंकरसीग पि. महाराजसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	82/3	0.600	0.600	
48	रामशंकर पिता लक्ष्मीनारायण पता सा. मोतीनगर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84	0.570	0.570	
			93	0.300	0.300	
49	गुवन्दी पिता मल्थी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86	0.270	0.270	
50	छतरपुरी पिता पूरन पुरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	87/1	0.130	0.130	
			96/1	0.250	0.250	
			135	0.340	0.340	
			140/1	0.320	0.320	
			145/1	0.070	0.070	
			162/1	0.120	0.120	
			197/1	0.450	0.450	
			200/1	0.400	0.400	
51	सरजूबाई पत्नि छतरपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	87/2	0.140	0.140	
			200/2	0.400	0.400	
52	शिवचरण पिता सोमपुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	87/3	0.130	0.130	
			96/3	0.260	0.260	
			106/1	0.020	0.020	
			142/2	0.050	0.050	
53	अक्धपुरी पिता भगवतपुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	87/4	0.990	0.990	
			96/4	0.770	0.770	
			140/4	0.460	0.460	
54	अमोल सिंह पिता अनंतसीग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89	0.100	0.100	
			90	0.090	0.090	
			91	0.100	0.100	
55	चौदा पि. गनुवा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	88	0.190	0.190	
			137	0.400	0.400	
			230	0.020	0.020	

56	इमरत पुरी पिता पूरनपुरी सा0 देह भूमिस्वामी इमरतपुरी पिता पूरनपुरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96/2	0.110	0.110	
			136	0.150	0.150	
			140/2	0.330	0.330	
			141	0.030	0.030	
			142/1	0.010	0.010	
57	रंधीरसींग बीरसींग भगवान-सींग पि. घनश्याम भागवती राजबाई पुत्री घनश्यामगंगासींग पि. नत्थूसींग भूमि स्वामी मायाबाई पति नत्थूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	97	1.120	1.120	
			109	0.040	0.040	
			110	0.090	0.090	
			139	0.380	0.380	
			157	0.040	0.040	
			158	0.050	0.050	
			160	0.120	0.120	
			203	0.020	0.020	
			206	0.390	0.390	
			280	0.040	0.040	
			285	4.240	4.240	
			289	0.030	0.030	
290	0.050	0.050				
58	राकेश पुरी पिता लछमन पुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/2	0.030	0.030	
			103/2	0.040	0.040	
			120/2	0.020	0.020	
			123/2	0.010	0.010	
			266	0.250	0.250	
			270/2	0.390	0.390	
			293/2	0.300	0.300	
299/2	0.070	0.070				
59	कमलेशपुरी राकेशपुरी पिता लछमनपुरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102/1	0.070	0.070	
			119	0.050	0.050	
			125/1	0.010	0.010	
			198/3	0.350	0.350	
			223/1	0.720	0.720	
			224/1	0.040	0.040	
			247/1	0.240	0.240	
			249/1	0.820	0.820	
			268/1	0.240	0.240	
298	0.140	0.140				
60	मकुन्दीसींग पिता बुखई जालम पिता बरजोर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	105/1	0.070	0.070	
			226/2	0.050	0.050	

61	करनसींग पिता बुखई जालम पिता बरजोर पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	105/2	0.070	0.070	
			226/1	0.270	0.270	
			228	0.150	0.150	
62	गीता देवी पिता सोमपुरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	106/2	0.020	0.020	
			140/3	0.330	0.330	
63	बिन्द्रावन प्रकाश पिता कनई सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107	0.030	0.030	
			143	0.400	0.400	
			147	0.020	0.020	
			172	1.950	1.950	
			173	0.100	0.100	
64	मुनू बेवा खुमान इन्द्ररानी बेवा खुमान सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112	0.040	0.040	
			273/1	0.130	0.130	
			274	0.040	0.040	
65	मंगल पि. फूलसींग जनकाबाईपुरी फूलसींग नत्थूसींग पि. गनेश महाराजसींग पि. मत्थी अर्जुनसींग पि. भूमि स्वामी पि. गोविन्द सींग कमलाबाईधनबाई पुत्री गोविन्दसींग बडीबहू वेवा गोविन्दसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113	0.120	0.120	
66	जनकपुरी पिता नथूपुरी सुमतरानी वेवा नथूपुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	116	0.070	0.070	
			122	0.070	0.070	
			168	0.240	0.240	
			169	1.540	1.540	
			264	0.050	0.050	
			265	0.250	0.250	
			296	1.240	1.240	
			300	0.130	0.130	
67	नर्मदापुरी पिता जनकपुरी पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	117/1	0.070	0.070	
			121	0.070	0.070	
			129/2	0.020	0.020	
			291/1	0.210	0.210	
			295/3	0.120	0.120	
			301/1	0.270	0.270	
68	अनिल पुरी ना० वा.० पिता जनक पुरी पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	117/2	0.070	0.070	
			128	0.070	0.070	
			291/2	0.210	0.210	
			295/2	0.120	0.120	
			301/2	0.270	0.270	

69	सचिन पुरी ना० वा० पिता जनक पुरी पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	117/3	0.070	0.070	
			193/1	0.110	0.110	
			291/3	0.210	0.210	
			301/3	0.270	0.270	
			305/1	0.110	0.110	
70	अमितपुरी ना० पा० पिता जनकपुरी पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	117/4	0.070	0.070	
			193/2	0.120	0.120	
			291/4	0.210	0.210	
			301/4	0.270	0.270	
			305/2	0.100	0.100	
71	शुभम पुरी ना० वा० पिता पालक जनकपुरी पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	117/5	0.080	0.080	
			193/3	0.220	0.220	
			291/5	0.200	0.200	
			301/5	0.270	0.270	
72	देवपुरी पि. गोविन्द पुरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	129/1	0.100	0.100	
73	नीमाबाई बेबा पुन्ना पानबाई श्यामबाई द्रोपती वाई पुत्री पुन्ना सा० देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	146	0.020	0.020	
74	माखन रामकृष्ण रामप्रसाद मानसीग पिता बल्दू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38	0.480	0.480	
			150	0.010	0.010	
			184	0.130	0.130	
			185	0.130	0.130	
			186	0.200	0.200	
			199/2	0.320	0.320	
			216	0.230	0.230	
218	0.220	0.220				
75	बृजरानी वेवा दरयाव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152	0.030	0.030	
76	देवी पि जस्सू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	153	0.010	0.010	
			188	0.200	0.200	
			199/1	0.650	0.650	
			219	0.230	0.230	
			221	0.220	0.220	
77	भगौनी पिता दामोदर पता सा. पिथौली सेवा खातेदार	भूमि स्वामी	155	0.050	0.050	
78	हरीसीग पिता रामसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	162/3	0.130	0.130	
79	आधारसीग हरीसीग पि. रामसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165	0.270	0.270	
80	भगवानसीग पिता कोमलसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	177/1	0.120	0.120	
			183/1	0.360	0.360	
81	निखलेशपुरी वल्ददेवीपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	190	0.220	0.220	
			195	0.640	0.640	
			196	0.460	0.460	
			197/3	0.450	0.450	
82	देवीपुरी पि. छतरपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	197/4	0.840	0.840	
			198/2	0.830	0.830	
			200/3	0.320	0.320	
83	निखलेशपुरी जितेन्द्रपुरी पिता देवीपुरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	2.080	2.080	
			200/4	0.600	0.600	
84	जनकपुरी पिता नथूपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	201	0.400	0.400	
85	महाराजसीग पिता मल्थीसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	213/2	0.860	0.860	
86	मकुन्दसीग पिता बुखई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	226/3	0.400	0.400	

87	रतीबाई पुत्री बाबूपुरी अनीता मुन्नीबाई मन्नीबाई पुत्री लक्ष्मणपुरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	248	0.070	0.070
88	देवीसींग बहादुर सींगपिता गन्धर्वसींग यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	249/2	0.180	0.180
			250/1	0.310	0.310
89	द्वारका पसाद पिता गोपालपसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	250/2	0.420	0.420
			275/2	0.310	0.310
90	करदारसींग प्रेमसींग गुलाबसींग प्रहलादसींग पि. रंधीर सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	262	0.920	0.920
91	छतरपुरी इमरतपुरी पितापूरनपुरी कमलरानी वेवा सोमपुरी शिवचरण ना. वा. पि. सोमपुरी पा. मां. कमलरानी भूमि स्वामी गीतादेवी वा. साधनादेवीना. वा. पुत्री सोमपुरी पां. मां. कमलरानी भगवतपुरीपि. रल्लीपुरी शंकरपुरी भूमि स्वामी पिता हल्केपुरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	267	0.920	0.920
92	गुलाबबाई पुत्री उमरावसींग साठ देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	284	0.030	0.030
93	देशराजसींग जनकसींग ना.वा.पि. पहारसींग पा. व.मां खुद चम्बाई वेवा पहारसींग पता सा. पिथौरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	287	1.140	1.140
94	केशरीसींग पि. शंकरसींग प्रतापसींग पि. कुंजनसींग पता सा. पिथौरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	288	1.590	1.590
95	संजयकुमार पिता शिखर चंद पता सा. बांदरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	295/1	0.600	0.600
96	गुलझारसींग पि. दरयासींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36	0.480	0.480
			56	0.150	0.150
			177/2	0.060	0.060
			180/2	0.100	0.100
			183/3	0.320	0.320
97	देवीपुरी गुड्डाबाई पि. द्वारकापुरी सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	192	0.560	0.560
98	मीराबाई पत्नि शंकर सिंह सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	208/2	0.600	0.600
99	हरपे लच्छू पिता पुनू अहिरवार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	162/2	0.070	0.070
			317	134.070	134.070

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 11-अ-82-19-20-4999

ग्राम-मौजा सेमराअटा पटवारी हल्का नं. 061 तहसील मालधौन
 चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। इस परियोजना से निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./अ/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम	:-	बण्डा परियोजना जिला सागर बण्डा बांध
(2) भूमि का विवरण	:-	
1. जिला	:-	सागर
2. तहसील	:-	मालधौन
3. ग्राम	:-	सेमराअटा
4. पटवारी हल्का नं.	:-	061
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:-	83.550 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	राजाराम रंधीरसींग जीवन पिता फुलसींग नथ्थीबाई पुत्री फूलसींग मझलीबहू बेवा फुलसींग	भूमि स्वामी	321	0.300	0.300	
			322/1	0.110	0.110	
			324	0.060	0.060	
2	मु. इसरार इजहार अनसार पिता मुहम्मद इसराईल राशिदा बेगम बेवा इसराईल	भूमि स्वामी	328	0.060	0.060	
3	अनीताबाई बेवा घूमनसिंह	भूमि स्वामी	93	0.700	0.700	
4	वीरसींग पिता मुलूसींग	भूमि स्वामी	94/1	0.100	0.100	
			193	0.060	0.060	
			198	0.240	0.240	
			297/2	0.600	0.600	
5	मुकेश पिता भगतसींग मीराबाई बेवा भगतसींग	भूमि स्वामी	94/2	0.100	0.100	
6	खलकसिंह पिता मुलू	भूमि स्वामी	94/3	0.100	0.100	
			194	0.040	0.040	
			308	0.510	0.510	
			344	0.040	0.040	

7	परवतसिंह पिता भैयालाल	भूमि स्वामी	95	1.210	1.210
8	द्रोपतीबाई पुत्री हल्का	भूमि स्वामी	96/1	0.400	0.400
			350/1	0.130	0.130
			356/1	0.120	0.120
			380/1	0.080	0.080
9	पुष्पाबाई पुत्री हल्का	भूमि स्वामी	96/2	0.400	0.400
			350/2	0.120	0.120
			356/2	0.130	0.130
			380/2	0.070	0.070
10	राजबाई पिता सिरदार	भूमि स्वामी	98	0.330	0.330
			382	0.140	0.140
			383	0.280	0.280
11	सजू सिंह पिता नारायण सिंह	भूमि स्वामी	195	0.040	0.040
			302	0.620	0.620
			304	0.340	0.340
			342	0.04	0.04
12	राजाराम पिता खलकसिंह	भूमि स्वामी	185	0.200	0.200
			196	0.040	0.040
			303	0.560	0.560
			343	0.040	0.040
13	गुलाबसींग पिता सिरदार सींग	भूमि स्वामी	392	0.450	0.450
14	बुदनसिंह पहरसिंह रतनसिंह पिता भुजबल पूनाबाई बेबा भुजबल महराज पिता कल्यान मर्दन पिता बाबूसिंह कुसुमरानी पुत्री बाबूसिंह	भूमि स्वामी	127	0.110	0.110
			336	0.300	0.300
15	यशपाल सींग ना बा पिता कल्यान सींग	भूमि स्वामी	394/1	0.340	0.340
			394/2	0.370	0.370
16	सत्यनारायण पिता जगन्नाथ प्रसाद	भूमि स्वामी	283/3	0.800	0.800
			283/4	0.170	0.170
			311/1	0.410	0.410
			313/2	0.400	0.400
17	महराजसिंह पिस. कल्यानसिंह	भूमि स्वामी	125	0.090	0.090
18	प्रहलाद सिंह पिस. दरयावसिंह	भूमि स्वामी	129	0.060	0.060
19	मर्दनसिंह पिता बाबूसिंह	भूमि स्वामी	130	0.150	0.150
20	बहादुरसिंह पिता रगवीरसिंह	भूमि स्वामी	136	0.060	0.060
			307/2	1.340	1.340
			354/1	0.550	0.550
21	तेजाबाई बेबा बखतसींग	भूमि स्वामी	137	0.140	0.140
22	भगवान सिंह पिता नारायण सिंह	भूमि स्वामी	143	0.040	0.040
23	लोटनसींग पिता महतापसिंह	भूमि स्वामी	180	0.090	0.090
			306	0.870	0.870
			335	0.400	0.400
			338	0.060	0.060
			396	0.490	0.490

24	यशवन्तसींग पिता कल्याण सींग	भूमि स्वामी	181	0.060	0.060	
25	धनसींग पि. खिलानसींग	भूमि स्वामी	183	0.080	0.080	
			184	0.140	0.140	
26	भीकमसिंह पिता कनईसींग सा. पिथौली	भूमि स्वामी	186/1	0.050	0.050	
27	अमोल सींग पिता गुलाब सींग	भूमि स्वामी	186/2	0.070	0.070	
			394/4	0.360	0.360	
28	हरनामसींग पिता पर्वतसींग	भूमि स्वामी	187	0.090	0.090	
			301	0.400	0.400	
29	बदनसींग कल्याण सींग भूपेन्द्रसींग पिता गुलाबसींग	भूमि स्वामी	188	0.320	0.320	
30	बदनसींग पिता गुलाबसींग	भूमि स्वामी	394/3	0.370	0.370	
31	रविन्द्र ना वा पिता भगतसींग वली मां भीराबाई बेवा भगतसींग सा. देह	भूमि स्वामी	297/3	0.600	0.600	
			197	0.180	0.180	
			323	0.060	0.060	
32	खलकसिंह वीरसिंह पि. मुलूअनवीर सिंह दुरगा पि. नत्थू भगतसींग पि. अनन्तसींग कस्तूरीबाई बेबा छतरसींग भूमि स्वामी उषा ना.वा. पुत्री छतरसींग व वली मां कस्तूरीबाई बेबा छतरसींग भूमि स्वामी बड़ीबिन्ना वा. छोटीबिन्ना ना. वा. पुत्री अनन्तसींग मंजलीबहू बेबा अनन्तसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199	0.500	0.500	
33	बल्दवान पिता रामदयाल	भूमि स्वामी	200/1	1.170	1.170	
			381/1	0.100	0.100	
			334/1	0.080	0.080	
34	शंकरलाल पिता भैयालाल	भूमि स्वामी	200/2	1.180	1.180	
			201	0.260	0.260	
			381/2	0.100	0.100	
35	जगतसींग पिता मंगलसींग	भूमि स्वामी	202/1	0.080	0.080	
			395/1	0.130	0.130	
36	कल्याणसींग पिता मंगलसींग	भूमि स्वामी	202/2	0.080	0.080	
			395/2	0.130	0.130	
37	पप्पूसींग पिता मंगलसींग	भूमि स्वामी	202/3	0.080	0.080	
			395/3	0.130	0.130	
38	भूरे सींग पिता मंगलसींग	भूमि स्वामी	202/4	0.090	0.090	
			395/4	0.130	0.130	
39	गोपालसिंह पि. बाबूसिंह	भूमि स्वामी	203	0.680	0.680	
			387	0.470	0.470	
40	राजेन्द्रप्रसाद पिता जगन्नाथ	भूमि स्वामी	310/2	0.250	0.250	
			311/2	0.490	0.490	
			283/1	0.980	0.980	
41	मुलाबाई पति धीरज सिंह	भूमि स्वामी	244	0.110	0.110	
			248	1.050	1.050	

42	जनकसिंह पिता फदाली	भूमि स्वामी	245/1	0.140	0.140	
43	गोविन्द सिंह करतसिंह	भूमि स्वामी	245/2	0.130	0.130	
44	मन्लूलाल पिता परम	भूमि स्वामी	246	0.100	0.100	
45	जमनाबाई पत्नि कड़ोरी	भूमि स्वामी	256	0.880	0.880	
46	नन्हीबहू उर्फजमना पत्नि	भूमि स्वामी	293	0.540	0.540	
47	टुन्डे भूरीबाई लच्छीबाई, मजबूतसिंह, पि. गोवर्धन करन, मल्लोबाई पुत्री कुदंउ	भूमि स्वामी	294	0.320	0.320	
48	देवीसिंह पिता गंधर्वसिंह	भूमि स्वामी	295/1	0.040	0.040	
			295/2	0.550	0.550	
49	जयसिंह पि. गंधर्वसिंह	भूमि स्वामी	296	1.360	1.360	
50	सुनील पिता निर्मल कुमार जैन	भूमि स्वामी	297/1	0.840	0.840	
51	बहादुरसींग पिता सेतुसींग सा. देह	भूमि स्वामी	298/2	0.170	0.170	
52	भगवानसींग गुलाबसींग पिता टुडे सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	298/3	0.110	0.110	
			292/2	0.690	0.690	
			366	0.370	0.370	
53	राजकुमार पिता भगवानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	299	0.270	0.270	
			364	0.360	0.360	
			371	1.530	1.530	
54	करनसिंह पिता सेतुसींग	भूमि स्वामी	305/1	1.320	1.320	
			298/1	0.050	0.050	
55	कीरतसींग पिता बखतसींग	भूमि स्वामी	283/2	0.400	0.400	
			305/2	0.740	0.740	
56	लक्ष्मनसिंह पिता रगवीरसींग सा. देह	भूमि स्वामी	307/1	0.740	0.740	
			354/3	0.040	0.040	
57	ऊधमसींग पिता रघुवीरसींग	भूमि स्वामी	307/3	1.030	1.030	
58	पहारसींग पिता रघुवीर सींग	भूमि स्वामी	307/4	1.030	1.030	
			354/4	0.720	0.720	
59	रघुवीरसिंह पिता मंगलसींग	भूमि स्वामी	309/1	0.030	0.030	
60	इमरतीबाई पत्नि उजयारसिंह	भूमि स्वामी	309/2	0.400	0.400	
61	अरविन्द्रसींग ना बा पिता लक्ष्मनसींग	भूमि स्वामी	309/3	0.400	0.400	
62	प्रदीप संदीप गायत्री पिता चन्द्रराज रामदेव बेबा चन्द्रराज	भूमि स्वामी	310/1	0.400	0.400	
63	मथराप्रसाद पिता जगन्नाथ प्रसाद	भूमि स्वामी	313/1	0.480	0.480	
64	शंकरलाल पिता भैयालाल	भूमि स्वामी	314	0.120	0.120	
65	केतकीबाई बेवा सूरतसींग	भूमि स्वामी	315	0.230	0.230	
66	बालचंद पिता भैयालाल	भूमि स्वामी	316	1.640	1.640	
			334/2	0.070	0.070	
			340	0.24	0.24	
67	रामसिंह पिता गिरधारी पता सा देह	भूमि स्वामी	317/1	0.220	0.220	

68	चरणसींग पिता गिरधारीलाल	भूमि स्वामी	317/2	0.230	0.230	
			333/3	0.020	0.020	
69	केशरीसींग पिता गिरधारी लाल	भूमि स्वामी	317/3	0.230	0.230	
			333/4	0.020	0.020	
70	विनोदसींग पिता गिरधारीलाल	भूमि स्वामी	318	0.140	0.140	
71	अनवीरसिंह पि. नल्यू राजाराम रंधीरसिंह कुंजन	भूमि स्वामी	319	0.240	0.240	
72	फूलसींग, राजाराम, रंधीरसींग कुंजन	भूमि स्वामी	320	0.010	0.010	
			393	0.400	0.400	
73	उषा पुत्री छतरसींग बडी बिन्ना छोटी बिन्ना केतकीबाई बेवा सूरतसींग बाबूसींग जगभानसींग पिता फदाली खलकसींग वीरसींग	भूमि स्वामी	322/2	0.110	0.110	
74	कुवंरबाई बेबा गुलझारीसिंह, गब्बू वल्दू, ना. वा. पिता गुलझारसिंह	भूमि स्वामी	325	0.400	0.400	
			337	0.480	0.480	
75	भानुपतापसींग पिता बदन सींग सा. देह	भूमि स्वामी	339	0.170	0.170	
			341/2	0.180	0.180	
			352/2	0.340	0.340	
76	सुरेन्द्रसींग पिता अमोलसींग	भूमि स्वामी	341/1	0.240	0.240	
77	अर्जुनसींग पिता रतनसींग	भूमि स्वामी	345/1	0.050	0.050	
78	पप्पूसींग पिता भूरेसींग पिता मंगलसींग तेजाबाई पिता मंगल सींग	भूमि स्वामी	345/2	0.050	0.050	
79	हरजुवा झलुवा पिता घसीटा	भूमि स्वामी	346	0.050	0.050	
80	राजबाई पिता सिरदार	भूमि स्वामी	347	0.080	0.080	
			349	0.270	0.270	
81	द्रोपतीबाई पति नारायणसींग	भूमि स्वामी	348/1	0.090	0.090	
			351	0.790	0.790	
82	सूरजबाई पति मर्दनसींग	भूमि स्वामी	348/2	0.210	0.210	
83	अमोलसिंह पिता गुलाबसींग	भूमि स्वामी	352/1	0.100	0.100	
84	जमनाबाई बेवा जगन्नाथ	भूमि स्वामी	353	0.740	0.740	
85	ऊधमसींग पिता रघुवीरसींग	भूमि स्वामी	354/2	0.890	0.890	
86	केशरबाई पति लक्ष्मन सिंह	भूमि स्वामी	357	1.350	1.350	
			379	0.240	0.240	
87	गंधर्वसींग गजेन्द्र सींग राजासींग पिता भगवान सींग शारदाबाई बेवा भगवानसींग	भूमि स्वामी	386	0.570	0.570	
88	भगवान सींग संग्रामसींग	भूमि स्वामी	388	1.060	1.060	
89	अनूपसींग भूरे पिता शंकरसींग	भूमि स्वामी	389	0.710	0.710	
90	साहबसींग पिता हुकुमसींग	भूमि स्वामी	397	0.980	0.980	
91	प्यारीबहू जोजे करनसींग	भूमि स्वामी	398/1	0.220	0.220	
92	पानबाई बेवा अनंतसींग	भूमि स्वामी	398/2	1.310	1.310	

93	भूर सींग पिता मंगलसींग	भूमि स्वामी	400	0.250	0.250	
94	परवतसिंह पिता करनसिंह सा. देह	भूमि स्वामी	286/2	0.520	0.520	
			374	0.630	0.630	
			401	0.340	0.340	
95	विक्रम भोपाल पि. पहीरसींग अरविंद भगवानसिंह पिता लक्ष्मन सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	261	0.560	0.560	
96	केशरीसींग पि. बखतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	243/2	1.210	1.210	
97	भाईसाहब पिता खलकसींग राजासींग पिता भगवानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	287	0.550	0.550	
			289	0.610	0.610	
98	जयसिंह पि. गंधर्वसिंह पता सा. पिथौली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	288	1.130	1.130	
99	पवन कुमार पिता सनत कुमार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	242/1	0.800	0.800	
100	राजासींग पि. देवी सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	290	0.980	0.980	
101	हरीसींग प्रहलाद पिता कडेरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	242/2	0.310	0.310	
			242/3	0.120	0.120	
			243/1	0.680	0.680	
102	मल्लोबाई पुत्री कुंदउधीरतसिंह दुरगसिंह जगतसिंह पि. रघुनाथ गंधर्व सिंह पि. बारेलाल हल्कू पि. बुदना भूमि स्वामी मजबूतसिंह पि. गोवर्धन करनसिंह बहादुरसिंह पि. सेतु शीलाबाई पुत्री सेतूभगवानसिंह गुलाबसींग पि. भूमि स्वामी टुन्डे भूरीबाई लच्छीबाईपुत्री टुन्डे नन्हीबाई बेबा टुन्डे पता सा. पिथौली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	291	1.360	1.360	
103	भगतसींग पिता अनतसींग कस्तुरीबाई बेबा छतरसींगउषा पुत्री छतरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	285	0.880	0.880	
104	बदीपसाद पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	312/2	0.500	0.500	
105	रामसिंह पिता गिरधारी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	333/1	0.020	0.020	
106	निरजनसींग पिता गिरधारी लाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	333/2	0.020	0.020	
107	कुवरबाई बेबा गुलझारसिंह शंकरसींग दीनू गब्बू बल्लू ना. वा. पिता गुलझारसिंह लच्छी कल्ली भूमि स्वामी जानकीबाई गुड्डीबाई वागंगाबाई ना.बा. पि. गुलझार सिंह मंगलसिंह पि. भूरेधनसींग नवावसींग पि. भूमि स्वामी खिलान बड़ीबहू बेबा खिलानसींग राजाराम रंधीरसींग कुन्जनसींग पि. फूलसींगनत्थीबाई पुत्री फूलसींग भूमि स्वामी मंझलीबहू बेबा फूलसींगमानसींग पिता कल्यानसींग जाहरसींग पि. रामसींगसंजलीबहू बेबा रामसींग भूमि स्वामी फूलसींग पि. गनेश सावित्रीबाई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	358	0.770	0.770	
108	कोमलसींग राघवेन्द्र सींग पिता फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	359	1.410	1.410	
109	सूरत पिता भूपत पता सा. मगरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	365	0.310	0.310	

110	छततरसींग पिता मजबूतसींग पुष्पाबाई शान्तिबाई पिता मजबूतसींग पता सा. पिथौली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	367	0.980	0.980	
111	ग्याबाई बेबा चंदनसींग सोवरन मेहताब पिता चंदनसींग पता सा. पिथौली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	369/1	0.510	0.510	
			370	0.690	0.690	
112	रामसींग धनसींग जोधनसींग गौराबाई पिता वीरसिंह पता सा. पिथौली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	369/2	1.410	1.410	
113	शिवराजसिंह पि. सुन्नेरसिंह पता सा. पिथौली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	369/3	0.400	0.400	
114	कासीबाई बेबा झलकन सींग कल्यानसींग राजेश ना.वा. पि. झलकनसींग आरती मीनाभारती ना. वा. पुत्री भूमि स्वामी झलकनसींग वली मां खुदकाशीबाई पता सा. बांदरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	372	1.440	1.440	
115	श्रीसींग पि. झलकनसींग पता सा. बांदरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	373	1.240	1.240	
116	संतोषसिंह गंधर्वसिंह पि. बाबूसिंह रामकलीबाई पत्नि बाबूसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	375/1	1.050	1.050	
117	रविकुमार पिता मुन्नालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	375/2	0.400	0.400	
118	राजेश कुमार पिता पन्नालाल सोनी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	376	1.430	1.430	
119	बदनसींग कल्यानसींग पिता गुलाबसींग सा. देह	भूमि स्वामी	286/1	0.520	0.520	
120	जगतसींग पिता बटू सा. देह	भूमि स्वामी	355	0.400	0.400	
121	राजाराम रंधीरसींग कुंजनसींग जीवनसींग पिता फूलसींग नंथीबाई पुत्री फूलसींग मझलीबहू बेवा फूलसींग सा. देह	भूमि स्वामी	393	0.400	0.400	
	कुल		198	83.550	83.550	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 12-अ-82-19-20-5000

अटाटीला पटवारी हल्का नं. 0062 तहसील मालथौन

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-

बंडा सिंचाई परियोजना बण्डा, बांध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पटवारी हल्का नं.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

सागर
मालथौन
अटाटीला
062
59.560 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	रगवीर राजाराम पूरन पिता गनेश लक्ष्मन मुलू बा0 रामकिशन मानसीग विपत ना0 बा0 पिता खिलान पा0 व खुद मां रतिबाई बेबा खिलान भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	558/1	1.170	1.170	
2	रुकमनबाई जोजे रामप्रसाद पता सा. मैहर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	563/1	0.610	0.610	
3	कमोदप्रसाद पिता रामप्रसाद पता सा. मैहर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	563/2	0.800	0.800	
4	पन्नालाल पिता रगवीर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	565	0.600	0.600	
5	अकित्त आशु नाबा सुम्मी नाबा पिता अनंदीलाल पा वा खुद मासविता बेवा अनन्दीलाल पता सा. मैहर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	580/1	1.040	1.040	
6	गिरिराज पि. रामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	580/2	1.040	1.040	
7	पूरन पि. गनेश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	584	0.900	0.900	
8	बिहारी गुडडू मुन्ना पिता छतारेलालश्यामबाई पिता छतारे रामकली बेवा छतारे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	585	1.980	1.980	
9	प्रतापसिंह पिता मकुन्दसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	586	0.810	0.810	
			649	1.620	1.620	

10	प्रदीप कुमार पिता दुर्गापसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	587	1.040	1.040	
11	देवी कीर्ति नाबा पा मा व खुद मा गुंजा बेवा कडोरी पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	588/2	0.200	0.200	
			589	0.390	0.390	
			590/2	0.100	0.100	
			674/2	0.510	0.510	
12	काशीबाई पति दुर्जन पता सा. बांदरी शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	591	1.150	1.150	
13	रामचरण रामनाथ मोहन धनीराम पिता दुर्जनमीराबाई पुत्री दुर्जन काशीबाई बेवा दुर्जन पता सा. बांदरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	592	1.300	1.300	
14	मोहनलाल पूरनलाल पिताप्यारेलाल पता सा देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	598/3	0.600	0.600	
15	प्रेमरानी पति पन्नालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	599	0.890	0.890	
16	नन्नीबाई वेवा गुवन्दे पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	600	0.480	0.480	
			615	0.310	0.310	
17	रामनाथ पिता लक्ष्मण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	601	1.210	1.210	
18	रामदयाल बल्द मुलू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	602	1.140	1.140	
19	ऋषभकुमार पिता लखमीचंद पता सा. बांदरी शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	603	0.680	0.680	
20	कूरा वल्द गरीवा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	604	0.780	0.780	
21	विनोद सुरेन्द्र पिता बाबूसिंहभागबाई बेवा बाबूसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	609	0.550	0.550	
22	पूरन मोहन फुलाबाई कलाबाई ताराबाई पिता प्यारेलाल पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	610/1	0.200	0.200	
23	संतोष धीरत राजकुमार सुनील पिता पूरन अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	610/2	0.690	0.690	
24	हरिया वल्द रखा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	611	0.800	0.800	
25	धनुवा गगुवा पिक्कू पप्पू तुलैयाछोडा दशरिथया पिता भगू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	612	0.800	0.800	
26	लखन पिता कुदउं पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	614	0.760	0.760	
27	देवेन्द्र सुरेन्द्र पिता बाबूसिंह भागबाई बेवा बाबूसिंह वीरेन्द्र भूपेन्द्र पिता कल्याण सिंह राजेन्द्र सिंह पिता दुर्जनसिंह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	616	0.800	0.800	
28	गफलू पिता मुलू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	617	0.830	0.830	
29	खुमान पि. गनेश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	620	0.490	0.490	
30	रगवीर रज्जू पूरन पि. गनेशगनेशीबाई बेवा गनेश लक्ष्मण मुलू वा. रामकिशनमानसींग विफत ना. वा. पिता भूमि स्वामी खिलान वली मां व खुदरत्तीबाई बेवा खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	621	0.230	0.230	

31	कुमसिंह खेतसिंह इन्द्रपाल गजेन्द्र लक्ष्मीबाई पिता रामसींग छोटीबाई बेबारामसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	622/1	0.300	0.300	
32	शकरसिंह राकेश राघवेन्द्र हीराबाई कृष्णा आशा पिता भगवानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	622/2	0.300	0.300	
33	देवेन्द्र सुरेन्द्र पिता बाबूसिंह भागबाई बेबा बाबूसिंह वीरेन्द्र भूपेन्द्र पिता कल्याण सिंह राजेन्द्र सिंह ज्ञानबाई नारायणबाई पिता दुर्जनसिंह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	622/3	2.150	2.150	
34	शकर पिता मुन्नीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	626/1	0.280	0.280	
35	भगताराम पिता नारायण सिंह सावित्रीबाई बेबा नारायण सिंह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	626/2	0.280	0.280	
36	बडीबहू बेबा मर्दन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	627	0.520	0.520	
37	मनुवा पिता मर्दन भैयालालगोरा नथुवा पिस. दुर्जन बडीबहू बेबा दुर्जन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	628	1.460	1.460	
38	अमनीबाई बेबा बुखईया कमल राजू महेस नदराम बा. हल्लेभाई नाबा सुमत्रा बा रेखा नाबा पिता बुखईया पा मा अमनीबाई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	631	0.940	0.940	
39	भगताराम पिता नारायण सिंह सावित्रीबाई बेबा नारायण सिंह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	632	1.210	1.210	
40	भिम्मेसिंह पिता नन्हेसिंह पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	636	1.210	1.210	
			637	0.380	0.380	
			638	0.120	0.120	
41	नन्नू पिता बाली पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	640	1.210	1.210	
42	चूचा पिता चिन्नू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	641	1.210	1.210	
43	बहादुरसिंह पिता मकुन्दसिंह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	644/1	0.400	0.400	
45	इन्द्रसिंह पिता मकुन्दसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	644/2	0.400	0.400	
			648/3	0.400	0.400	
			652	0.160	0.160	
			653/2	0.070	0.070	
			656/2	0.240	0.240	
			665/2	0.030	0.030	
46	भगवानसिंह पि. तुलसीराम राजासिंह पि. नारायणसिंह प्रकाश सिंह पि. गुलाबसिंह शैलेन्द्रसिंहना. वा. पात वली भूमि स्वामी उदलसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	646	0.080	0.080	
			658	0.600	0.600	
			663	0.260	0.260	
47	उदलसींग पिता दिलीपसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	647	0.080	0.080	
			655	0.340	0.340	
			660/4	0.100	0.100	
48	मुन्ना सिंह पिता मकुन्द सिंह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	648/1	1.220	1.220	
49	बहादुर सिंह पिता मकुन्द पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	648/2	1.230	1.230	

50	सुदयमान सिंह पिता मकुन्द पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	648/4	1.230	1.230	
51	प्रीतम सिंह पिता उमरावसिंह काशीबाई देवा उमराव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	650	0.090	0.090	
52	मन्नसींग संतोषसींग रामजीचुखवा स्वका लीला मंदी पिता मंगल मझलीबहू बेबामंगल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	651	0.090	0.090	
53	श्यामबाई बेबा तुलसीराम भगवानसींग रघुनाथ रामजी सत्यभान पिता तुलसीराम पानबाई बेबा जगदीश देवेन्द्र राजेश वर्षा पिता जगदीश सोमवती बेबा राघवेन्द्र उमाहरीबाई बिन्नाबाई पिता तुलसीराम अभिलाषा मझली विन्ना हल्की विन्ना ना0 वा0 पिता चन्द्रभान पा0 माँ प्रेमबाई बेबा चन्द्रभान भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	653/1	0.080	0.080	
			656/1	0.230	0.230	
			660/2	0.200	0.200	
			665/1	0.030	0.030	
54	गुलाबसिंह पिता दलीपसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	654	0.800	0.800	
			660/3	0.400	0.400	
55	नारायणसिंह पि. दलीपसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	657	0.470	0.470	
			660/1	0.270	0.270	
			667	0.380	0.380	
56	जानकीबाई पिता दरयावसिंह पता सा. हटा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	660/5	0.200	0.200	
			666	0.250	0.250	
57	मुकेश कुमार पिता धन्नालाल सा0 खुरई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	662	0.500	0.500	
58	गिरधारी पि, परसादी पता सा. सेमरा हाट भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	669	1.100	1.100	
59	प्रानसिंह पिता सूरतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	670	0.850	0.850	
60	प्रानसिंह महाराजसिंहनारायणसिंह पिता सूरतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	671	1.440	1.440	
61	बहादुरसिंह पिता शोभारामजाहरसिंह सुम्मेरसिंह पि. सूरतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	678/1	0.810	0.810	
62	शिवराज बदनसिंह पिता सूरतसींग पता सा. डांकली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	678/2	2.230	2.230	
63	छोटेसिंह इमरतसिंह शिवराजसिंह जाहरसिंह सुम्मेरसिंह पिता सूरतसिंह पता सा डांकली तह.बंडा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	675	0.250	0.250	
			676	0.160	0.160	
			678/3	1.620	1.620	
64	गुलाबबाई जोजे शंकरसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	678/4	0.800	0.800	
65	ललताबाई पति पूरन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	558/2	0.400	0.400	
कुल योग			89	59.560	59.560	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथोन एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथोन एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर सघुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथोन में आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथोन एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 13-अ-82-19-20-500

मौजा पिथौली पटवारी हल्का नं. 061 तहसील मालथौन चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-	बण्डा परियोजना जिला सागर बण्डा बांध
(2) भूमि का विवरण :-	
1. जिला	सागर
2. तहसील	मालथौन
3. ग्राम	पिथौली
4. पटवारी हल्का नं.	061
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	108.320 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे. मं.	अर्जित भूमि (रकवा हे. मं.)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	बहादुरसींग पिता सेतूसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15	0.040	0.040	
			130/2	0.090	0.090	
			222/1	0.040	0.040	
			355/2	0.380	0.380	
			357/2	0.110	0.110	
			372	0.400	0.400	
			440/2	0.320	0.320	
			442/2	0.220	0.220	
2	प्रेमबाई बेवा जगतसींग लटोरे पिता जगतसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/1	2.010	2.010	
3	राघवेन्द्र पिता रामसींग लोधी सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/2	0.400	0.400	
4	किशोरा पिता खुमाना सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/1	0.800	0.800	
			345/1	0.600	0.600	
5	चौदा पिता खुमान सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/2	0.800	0.800	
			345/2	0.600	0.600	

6	नारायण पिता सूरतसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/3	0.150	0.150	
			86	0.330	0.330	
			345/3	0.080	0.080	
7	राजेश पिता खिलानसींग उर्फ लक्ष्मन सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/1	0.870	0.870	
8	प्रभाबाई बेवा भरतसींग तखत भारती पिता भारत सींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/2	0.880	0.880	
9	तिलकसींग ना बा पिता भूपेन्द्रसींग आरती बा उपासना संध्या ना बा पिता भूपेन्द्र सींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/1	1.210	1.210	
			92/2	0.020	0.020	
			160	0.170	0.170	
			234/2	0.120	0.120	
			270	0.100	0.100	
			294/2	0.220	0.220	
			422/1	0.140	0.140	
10	भोपाल सींग पिता नारानसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	435	0.500	0.500	
			77/2	0.490	0.490	
			48/1	0.430	0.430	
			77/3	0.720	0.720	
			92/1	0.020	0.020	
			157	0.220	0.220	
			234/1	0.120	0.120	
			294/1	0.220	0.220	
			436	0.590	0.590	
			437/2	0.820	0.820	
11	देशराज जनकसींग पित पहारसींग चंदाबाई बेवा पहारसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	438/1	0.180	0.180	
			78	0.980	0.980	
			79	0.790	0.790	
12	दमोदर पिता गिरधारीलाल निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	175	0.200	0.200	
			81	0.500	0.500	
			358	0.160	0.160	
			407	0.570	0.570	
			412	0.410	0.410	
			421	0.560	0.560	
			423	0.300	0.300	
			424/2	0.400	0.400	
13	सिरदारसींग प्रेमसींग गुलाबसींग बालिक प्रहनादसींग ना.बा. पिता रंधीरसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	431	0.150	0.150	
			432	0.300	0.300	
14	सकरूवा परमा हरिया अर्जन पिता गोरेलाल जमनाप्रसाद रतन पिता धनुवा मझलीबहू बेवा धनवा सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	82	0.470	0.470	
			83	0.900	0.900	
			139/1	0.140	0.140	
			140/1	0.070	0.070	

15	केशरीसींग सुल्तान राजेन्द्र उदयसिंह पिता शंकरसींग कुंजनसींग पिता मकुन्दसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84	2.370	2.370	
			108	1.900	1.900	
			131	0.400	0.400	
			174	0.200	0.200	
			344	0.690	0.690	
			360	0.380	0.380	
			376/1	0.440	0.440	
			385/1	0.770	0.770	
			417/1	0.270	0.270	
16	अकित मेघा पति विकाश कुमार सुष्मा बबा विकास कुमार सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85	0.760	0.760	
			87	0.130	0.130	
17	संजय कुमार पिता शिखरचंद निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88	1.770	1.770	
			89	0.410	0.410	
			97	0.510	0.510	
			126	0.150	0.150	
			127	1.360	1.360	
			128	0.600	0.600	
			135	0.380	0.380	
			161	0.130	0.130	
			422/2	0.150	0.150	
18	नितिन कुमार पिता संजयकुमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98	0.800	0.800	
			115/2	0.470	0.470	
			134	0.990	0.990	
19	रामसींग, धनसींग, जोधनसींग पिता वीरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99	0.690	0.690	
			133	0.490	0.490	
			165	0.140	0.140	
			406/2	0.340	0.340	
			409	0.470	0.470	
			410	0.080	0.080	
			414/2	0.360	0.360	
20	बलराम भपेन्द्रसींग दुर्गसींग राघवेन्द्र सींग सुजानसींग पिता राजाराम सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100	1.750	1.750	
21	हरपाल पिता दशरथ श्रीबाई बेवा दशरथ कलाबाई पिता दशरथ शिवराज चंदन पिता सुमेर राजबाई पिता सुमेर जानकीबाई बेवा सुमेर लक्ष्मण पिता रतनसींग मथुराबाई कृष्णाबाई पिता रतनसींग नर्मदा भारती ना.बा. पिता भरतसींग पा. मां. प्रभाबाई बेवा भरतसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102	0.970	0.970	
			122	0.550	0.550	
			228	0.020	0.020	
			379	0.200	0.200	
			403	0.180	0.180	
22	लक्ष्मणसींग मथुराबाई कृष्णाबाई पिता रतनसींग नर्मदा भारती ना.बा. पिता भरतसींग पालक व खुद मां. प्रभाबाई बेवा भरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103	0.360	0.360	
			105	0.100	0.100	
			111	0.370	0.370	
			112	0.160	0.160	
			231	0.010	0.010	
			443	0.340	0.340	

23	जिनेन्द्र कुमार पिता शिखरचंद सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	106	0.370	0.370
			120	0.740	0.740
24	भगोनी पिता दमोदर पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार	भूमि स्वामी	113	0.400	0.400
			114	0.220	0.220
25	दमोदर भागीरथ पिता नानीया सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115/1	0.470	0.470
26	जाहरसींग पप्पूसींग रूपसींग गब्बरसींग पिता कोमलसींग पोथीबाई बेवा कोमलसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	116	0.170	0.170
			117	0.050	0.050
			125	0.870	0.870
			232	0.010	0.010
			447/1	0.420	0.420
			447/2	0.400	0.400
27	पप्पूसींग रूपसींग गब्बरसींग पिता कोमलसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	118	0.440	0.440
			119	0.760	0.760
28	अभयसींग पिता लाखनसींग सां. देह	भूमि स्वामी	121	0.910	0.910
			124	0.020	0.020
			158	0.120	0.120
			167	0.120	0.120
29	जीराबाई जोजे लाखनसींग मानसींग सा. देह	भूमि स्वामी	123	0.780	0.780
			162	0.320	0.320
			220	0.320	0.320
			223	0.070	0.070
			397	0.280	0.280
			398	0.410	0.410
399	0.300	0.300			
30	सुषमा बेवा विकाश पता सा. निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	129	0.430	0.430
31	करनसींग पिता सेतूसींग पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	130/1	0.080	0.080
			257	0.260	0.260
			355/1	0.360	0.360
			357/1	0.110	0.110
			389/1	0.780	0.780
			440/1	0.320	0.320
442/1	0.210	0.210			
32	अशुल कुमार पिता संजय कुमार सा. देह	भूमि स्वामी	136	0.160	0.160
			137	1.410	1.410
33	कान्तिदेवी पति शिखरचंद निवासी ग्राम बांदरी	भूमि स्वामी	138	1.250	1.250
34	सोवरन सिंह पिता चंदनसिंह सा. देह	भूमि स्वामी	139/2	0.150	0.150
			140/2	0.070	0.070
35	ग्याबाई बेवा चंदनसींग सोवरन मेहताव पिता चंदनसींग निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	159	0.270	0.270
			430	0.150	0.150
36	गुलाबसींग सुम्मेरसींग पिता खिलानसींग सुक्कोबाई भूरीबाई पुत्री खिलानसींग, अनीताबाई पिता मडावनसींग इन्दलसींग साहवसींग पिता हुकमसींग सा. बादरी रामसींग धनसींग जोधनसींग गौराबाई पिता वीरसींग सा देह	भूमि स्वामी	132	0.340	0.340
			163	0.140	0.140
			411	0.220	0.220

37	गिरजाबाई बेवा रगवीर वीरसींग पिता कुन्दन सींग अनीता पुत्री झलकनसिंह ईदलसिंह साहबसींग पिता हाकमसिंह मझलीबहू बेबा हाकमसींग गुलाबसींग सुमेरसींग पिता खिलानसींग सुक्कोबाई भूरीबाई पुत्री खिलानसींग सा. देह	भूमि स्वामी	164	0.090	0.090
			367	0.650	0.650
			406/1	0.330	0.330
			414/1	0.390	0.390
38	सुमेरसींग देवीसींग रामसींग पिता दरयाव सींग इन्दरसींग पिता खुमानसींग हीरासींग लक्ष्मनसींग राजासींग रूपाबाई बेबा खुमानसींग पिता प्रतापसींग गोदाबाई बेवा प्रतापसींग मीनाबाई पिता प्रतापसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176	0.100	0.100
			177	0.100	0.100
			188	0.050	0.050
			230	0.100	0.100
			446	0.790	0.790
39	हरपालसींग पिता दशरथसींग सा. देह	भूमि स्वामी	185	0.100	0.100
			186	0.030	0.030
40	बाबूसींग बगैरा पता निवासी	भूमि स्वामी	187	0.040	0.040
			350	0.380	0.380
41	देवसींग पिता गन्धर्वसींग सा. देह	भूमि स्वामी	189	0.230	0.230
			190	0.150	0.150
			191	0.080	0.080
42	केशरी पिता शकरसींग भानुप्रताप पिता कुजनसींग सा. देह	भूमि स्वामी	192	0.110	0.110
43	कुजनसींग पिता मकुन्दी केशरी पिता शंकर सा. देह	भूमि स्वामी	193	0.100	0.100
44	मंदिर श्रीदेवमहादेव जी स्वामी मुह. बलराम पिता बृजलाल पता सा. प्रबंधन कलेक्टर महोदय सागर	भूमि स्वामी	194	0.060	0.060
			426	0.210	0.210
45	सुमतरानी बेवा खिलान श्रीबाई पुत्री खिलान सा. देह	भूमि स्वामी	195	0.070	0.070
			197	0.040	0.040
46	गन्धर्वसींग पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	221	0.080	0.080
			233	0.010	0.010
47	करनसींग बगैरह पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	222/2	0.030	0.030
48	प्रहलादसिंह पिता दरयावसींग पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	227	0.140	0.140
			256	0.040	0.040
49	सुखदेवसींग पिता पहारसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229	0.030	0.030
50	अरविन्द्र पिता कन्ठेदीलाल	भूमि स्वामी	250	0.470	0.470
51	पार्वतीबाई पिता रगवरिया दुर्गा हरिराम पति हल्कुआ कला दशोदा पुत्री हल्कुआ सा. देह	भूमि स्वामी	255	0.040	0.040
52	पल्लू पिता बुदना पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	258	0.140	0.140
53	जगत रज्जे शाके मुकेश पिता बल्ले गंदाबाई पुत्री बल्ले आदिवासी निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	334	0.080	0.080
			342	0.460	0.460
			408	1.470	1.470
			420	0.150	0.150
			427	0.030	0.030
54	ज्ञानी पिता तिजई हरिजन निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	336/1	0.390	0.390
			338	0.170	0.170
			341	0.210	0.210
55	हीरालाल पिता तिजई पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	336/2	0.260	0.260
			337	0.310	0.310

56	केशरी पिता शंकरसींग भानुप्रताप सींग पिता कुंजन सींग लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	339	0.350	0.350	
			373	0.950	0.950	
57	लक्ष्मीबाई बेवा रामसींग पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	340	0.580	0.580	
			388	0.320	0.320	
			425	0.210	0.210	
58	जाहरसींग पिता कुदरु पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	343	0.520	0.520	
59	संतोष ना बा पिता मूरतसींग भाई पा. भूपेन्द्रसिंह पिता मूरतसींग सा. देह	भूमि स्वामी	346	0.610	0.610	
60	कप्तान सिंह पिता खिलान सिंह सा बादरी	भूमि स्वामी	347	0.500	0.500	
61	रवीना रानी नाबा पुत्री राजेश वली नाना सम्मर सिंह बल्द डालसिंह सा. मेहर	भूमि स्वामी	348	0.660	0.660	
			349/2	0.140	0.140	
62	खिलागसींग पिता उर्फ लक्ष्मनसींग पिता रतनसींग सा देह	भूमि स्वामी	349/1	0.890	0.890	
63	अरविन्द्र पिता कमलचंद सा. सागर	भूमि स्वामी	351	0.380	0.380	
			352	0.490	0.490	
64	केशरीसींग पिता शंकरसींग भानुप्रतापसींग कुंजनसींग लोधी निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	353	0.140	0.140	
			354/1	0.320	0.320	
65	रूपाबाई बेवा खुमान निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	354/2	0.310	0.310	
66	अनदीलाल जालम पिता कुदरु	भूमि स्वामी	356	0.030	0.030	
67	श्रीकमल पिता अजीत कुमार जैन सा. देह	भूमि स्वामी	363	0.220	0.220	
68	अविनेश कुमार पिता बृजबिहारी निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	364	0.700	0.700	
			365	0.200	0.200	
			369	0.140	0.140	
			404	0.180	0.180	
			415	0.160	0.160	
			417/2	0.390	0.390	
			428	0.180	0.180	
			433	0.370	0.370	
69	छमादेवी पति अजीत कुमार जैन निवासी ग्राम बांदरी	भूमि स्वामी	370	3.150	3.150	
			371	0.500	0.500	
70	दुरगसिंह राधवेन्द्रसींग सुजानसींग पिता राजाराम सा देह	भूमि स्वामी	374	0.320	0.320	
			387	0.280	0.280	
71	कुंजनसींग पिता मकुन्दसींग सा देह	भूमि स्वामी	375/1	2.180	2.180	
72	शकुनबाई पति सल्तानसींग पुष्पाबाई पति उदयसींग सा. देह	भूमि स्वामी	375/2	2.180	2.180	
73	बृजबिहारी पिता गिरधारीलाल निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	376/2	1.710	1.710	
74	इमरत लालसींग पिता बाबूसींग भूरीबाई बेवा बाबूसींग निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	378	0.510	0.510	
			381	0.830	0.830	
75	बलराम भूपेन्द्रसींग पिता राजाराम सा देह	भूमि स्वामी	380	0.600	0.600	
76	अजुद्री पिता नत्थू निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	382	0.950	0.950	
77	नारायणबाई पति रामसींग निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	383/1	0.330	0.330	
78	राजकुमारी पति जयसिंह लोधी निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	383/2	0.800	0.800	
79	मेम्बरसिंह पिता जयसिंह निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	384	0.500	0.500	
80	छतरसींग पिता मजबूतसींग निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	385/2	0.030	0.030	

81	प्रतापसिंग पिता कुन्जनसिंग निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	386	0.960	0.960
82	हरपालसिंग पति दशरथ निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	389/2	0.170	0.170
			391	0.630	0.630
			429	0.180	0.180
83	हरपालसिंग पिता दशरथसिंग बगैरह निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	70	0.420	0.420
84	चंदनसिंह पिता बाबूसिंह लोधी सा. देह कोटिया	भूमि स्वामी	393/1	0.990	0.990
85	साहब सींग पिता हुकुम लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	393/2	0.800	0.800
86	प्रानसिंग पिता रतनसिंग, रामसिंग पिता भैयालाल निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	394/1	0.320	0.320
			395/1	0.090	0.090
87	छोटेसिंह पिता गजराजसिंह सा. पगारा	भूमि स्वामी	394/2	0.310	0.310
			395/3	0.090	0.090
88	महीपसिंह रगवर सिंह पिता गजराज सिंह लोधी सा. पगारा	भूमि स्वामी	395/2	0.810	0.810
89	हिमाशु पिता दमोदर प्रसाद	भूमि स्वामी	400	0.480	0.480
			401	0.280	0.280
			424/1	0.390	0.390
			424/3	0.280	0.280
			444	0.170	0.170
90	कलाबाई पत्नि धीरजसिंह सा बांदरी	भूमि स्वामी	402	0.230	0.230
91	पानबाई बेवा पचुवा निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	449	0.260	0.260
			454	0.160	0.160
92	मुन्नीबाई पिता पचुवा आदिवासी निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	450	0.150	0.150
			451	0.040	0.040
			452	0.340	0.340
			453	0.580	0.580
93	मलुवा पिता हरजुवा पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	455	1.270	1.270
94	कल्याण धनीराम गफ्फु पिता मंगू श्यानी पिता मंगू पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	456	1.060	1.060
95	धनसिंग पिता सुरई निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	457	1.080	1.080
96	नत्थू कलू चाली घूमन झबू लच्छी हल्की विन्ना बडी बिन्ना पिता देवी निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	459	0.470	0.470
कुल:-			248	108.320	108.320

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथोन एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथोन एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथोन में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईज किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथोन एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 08-अ-82-19-20-5002

ग्राम-इमलिया खुर्द पटवारी हल्का नं. 0061 तहसील मालथौन

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-	बंडा परियोजना बण्डा बांध
(2) भूमि का विवरण :-	
1. जिला	सागर
2. तहसील	मालथौन
3. ग्राम	इमलिया खुर्द
4. पटवारी हल्का नं.	061
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	50.090 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	कल्यानसींग पिता राजाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	228/2	0.250	0.250	
2	प्रभाबाई पति तरवरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	228/3	0.400	0.400	
3	राजाराम पिता देवसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229	1.240	1.240	
4	राघवेन्द्र सींग पिता दुरगसींग भूमि स्वामी हल्का पिता मुलू भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	230	0.300	0.300	
5	दुरगसींग पिता लोकसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	231	1.020	1.020	
6	कल्यानसींग भगवानदास पिता अमरसींग पोथीबाई सुगोवाई हल्लीबाई पुत्री अमरसींग राजबाई बेबा अमरसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	232/2 234/1	0.360 0.390	0.360 0.390	
7	भागवाई बेबा मंगल शोवरन रामदास यसोदा पुत्र मंगल बडीबहू वेवा खेतसींग अजुध्दी शिम्भू पिता मोहन पचोबाई अमनोबाई पुत्री सरुवा सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	177	0.160	0.160	
8	गिरवरसींग पिता मर्दन सींग	भूमि स्वामी	227/1	0.580	0.580	

9	कल्यानसीग पिता अमरसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	232/3	0.170	0.170	
			234/3	0.190	0.190	
			235	0.170	0.170	
10	मंतु मौजी पिता बुद्वा रामकली बेबा बुद्वा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	233	0.290	0.290	
11	घुरके पिता मुलू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	234/2	0.380	0.380	
12	प्रीतमसीग पिता प्रानसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	236	0.100	0.100	
13	हरपाल सीह प्रहलाद सीगपिता रतनसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	237	0.100	0.100	
14	भगतसीग पिता रतनसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	240	0.340	0.340	
15	पंचमसीग पिता रतनसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	241	0.430	0.430	
16	मुलाम जीवन मीरा पिता कुंजी श्याम गनेश राजबाई पूना पिता रगवरपार्वती वारीबाई पुत्री अपरवल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	282	0.340	0.340	
17	चन्दभान सीग पिता बाबूसीग पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	283/1	0.680	0.680	
18	राय सीग पिता विजय सीग पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	283/2	0.330	0.330	
19	पंचम सीग भगतसीग हरपालसीग चरनसीग प्रहलादसीग प्रानसीग मायाबाई पिता रतनसीग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	284	0.500	0.500	
			285	0.560	0.560	
20	मघतसीग पिता रतनसीगलक्ष्मनसीग पिता रामसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	315	0.230	0.230	
21	ग्यासीग पिता रामसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	316/1	0.420	0.420	
			319	0.380	0.380	
22	लछमनसीग पिता रामसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	316/2	0.350	0.350	
			317	0.420	0.420	
			341/2	0.270	0.270	
23	मायादेवी पत्नि अनिल कुमार जैन पता सा. बादरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	320	0.740	0.740	
			324	0.500	0.500	
			325	1.660	1.660	
			326/1	1.210	1.210	
			326/2	0.810	0.810	
24	गोविन्द सिंह कीरतसिंह नन्नेभाई पुत्र मानसिंहमीराबाई बेबा मानसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	321	0.210	0.210	
25	राजेन्द्र सीग पिता लोकसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	323	0.680	0.680	
26	दशोदा बाई बेबा हरपसादपूनाबाई पुत्री हरप्रसाद पता सा. पहरगुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	326/3	5.090	5.090	
			327	2.610	2.610	
27	भगवानसीग पिता मर्दनसीग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/2	0.060	0.060	
			227/2	0.590	0.590	
28	अनिलकुमार पिता शीलचदजैन पता निवासी ग्राम बादरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	326/4	4.000	4.000	
29	ऊदलसीग पिता खलकसीग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	328/1	0.470	0.470	
			328/2	0.400	0.400	
			334/3	0.400	0.400	

30	गोविन्दसींग हीरतसींग नन्हेभाई पिता मानसींग काशीराम पिता खलक सींग राम कलीबाई भगुन्तीबाई केशर बाई चिन्खाबाई फूलबाई पिता खलकसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	328/3	0.040	0.040	
31	उजयार सींग सोवत सींग पिता बल्दू बडी बहू वेवा बल्दू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	329	0.970	0.970	
32	उजयारसींग पिता बल्दवानसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	334/1	0.400	0.400	
33	जगदीश न वल्दीरसींग भगवान सींग पिता खिलान सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	334/2	0.400	0.400	
34	ऊदलसींग पिता खलकसींगसोमतसींग पिता बल्दवानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	336/1	0.340	0.340	
35	कृसमबाई पति वीरसींग सुखवती पति भगवानसींग जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	336/2	0.340	0.340	
36	थानसींग कमलेश पिता महतापराधारानी बेबा महताप पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	337	0.700	0.700	
37	नन्ही बहू बेबा दुलारीलाल पप्पू बखतसींग किसनसींग पिता दुलारीलाल रमसखी बेबा निजामसींग जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	338	0.980	0.980	
38	आशाबाई सुदामाबाई पुत्री धनश्याम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	339	0.910	0.910	
39	हल्की बहू बेबा रामदयाल शेख पुत्र गोरलाल शीताबाई पुत्री गोरेलाल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	340	0.080	0.080	
40	हनमतसींग पिता रामसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	341/1	0.270	0.270	
			342	0.150	0.150	
			346/2	0.390	0.390	
41	संग्राम बल्द कनई सतेन्द्र ना वा बल्द वा बली बलराम बल्द कनई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	343	0.590	0.590	
42	कनई पिता फदाली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	344	0.480	0.480	
			345	0.350	0.350	
43	चित्तरसींग पिता रामसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	346/1	0.700	0.700	
			352	0.350	0.350	
44	सरदार सींग, प्रेमसींग, गुलाब सींगप्रहलादसींग पिता रंधीर सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	347/1	0.840	0.840	
			348/1	0.970	0.970	
			351	0.100	0.100	
			353	0.380	0.380	
			354	0.320	0.320	
45	चरनसींग प्रानसींग पिता रतनसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238	0.230	0.230	
46	रामवती पति रतिराम पता सा. मकरोनिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	347/2	0.400	0.400	
			348/2	0.400	0.400	
47	भगवानसींग पिता खिलानसींग जगदीश पिता वीरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	349	0.800	0.800	
			350	0.890	0.890	
48	वीरसींग भगवानसींग पिता खिलानसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	355	1.590	1.590	
			359	0.480	0.480	

49	गोटीराम पिता वीरसींग शानसींग ना.वा. पिता भगवानसींग जाति लोधी पता सां. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	356/1	0.510	0.510	
			356/2	0.510	0.510	
			358/2	0.410	0.410	
50	वीरसींग भगवान सींगपिता खिलानसींग पता सां. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	357	0.820	0.820	
			361	0.800	0.800	
51	विशाल ना. वा. पिता भगवानसींग खेतसींग ना.वा. पिता जगदीश पिता वीरसींग पता सां. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	358/1	0.420	0.420	
महायोग			80	50.090	50.090	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निदेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन में आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 07-अ-82-19-20-5003

पहरगुआं पटवारी हल्का नं. 0060 तहसील मालथौन

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) परियोजना का नाम :- | बंडा परियोजना बण्डा बांध |
| (2) भूमि का विवरण :- | |
| 1. जिला | सागर |
| 2. तहसील | मालथौन |
| 3. ग्राम | पहरगुआं |
| 4. पटवारी हल्का नं. | 60 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 280.580 हेक्टेयर |

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	अभिषेक सवेन्द्र ना.वा. पिता निर्भयसींग वली दादी मायाबाई उर्फ मझली बहू सा. रमपुरा तहसील बण्डा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18	0.110	0.110	
			19	0.400	0.400	
			20	0.130	0.130	
2	मंगलसींग जबाहरसींगर किशोरसिंह पिता धोकल सिंह बड़ीबहू देवा धोकलसिंह पता सा. देह	भूमि स्वामी	21	0.130	0.130	
			22	0.110	0.110	
			44	0.370	0.370	
			234	0.480	0.480	
			242	1.010	1.010	
			303	0.650	0.650	
			355	0.630	0.630	
			477	0.480	0.480	
3	भोले ना.बा. पिता लटकन शंकर ना.बा. पिता लटकन सा. देह	भूमि स्वामी	79/1	0.580	0.580	
4	नारान पिता गजराज सा. देह	भूमि स्वामी	79/2	1.120	1.120	

5	दुर्गाबाई बेवा इमरत टीरमसींग देवीसींग बृजकिशोर पिता इमरत सुदामाबाई पिता पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23	0.100	0.100
			210	0.230	0.230
			641	0.060	0.060
			761	1.300	1.300
			762	0.200	0.200
			765	0.590	0.590
			769	0.550	0.550
			770	0.830	0.830
			771	0.590	0.590
			772	0.100	0.100
			774	0.760	0.760
818	0.180	0.180			
6	तखतसिंह पिता साधू गिरवर पिता गोपाल बड़ीबिन्ना हल्की बिन्ना पिता गोपाल	भूमि स्वामी	78/1	0.600	0.600
			783	0.100	0.100
			353/1	0.370	0.370
7	पोथीबाई पति जोधनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	298	0.050	0.050
			661/1	0.090	0.090
8	वीरसींग पिता भज्जू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	661/3	0.090	0.090
9	सियाबाई बेवा प्रेमसींग मीराबाई पिता प्रेमसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	46/2	0.060	0.060
			354/2	0.200	0.200
10	गिरवरसींग पिता गोपालसींग बड़ी बिन्ना पिता गोपालप्रसाद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	46/1	0.160	0.160
			76/2	0.500	0.500
			77	0.190	0.190
			78/2	0.400	0.400
			353/2	0.370	0.370
			722	0.200	0.200
			723	0.340	0.340
753/2	0.240	0.240			
11	सुखसिंह पिता हरिसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40	0.170	0.170
			41	0.070	0.070
12	बहादुर पिता रल्ली देवकाबाई पिता रल्ली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42	0.110	0.110
			733	0.490	0.490
13	महादेव चुन्नी पि. चितरसिंह नीमाबाई हल्की पिता चितरसिंह व अमनाबाई बेवा चितरसिंह जमनाबाई गिरजाबाई चिन्ता बाई पिता लालसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45	0.100	0.100
			239	0.120	0.120
			533	1.000	1.000
			544	1.090	1.090
14	तखतसिंह पिता सादू गिरवरपिता गोपाल बड़ी बिन्ना हल्की बिन्ना पिता गोपाल पोथीबाई पति जोधनसिंह भूमि स्वामी सा. देह वीरसिंह पिता भज्जू सा. राम छावरी दरयाव सींगगुलाबसींग भूमि स्वामी पिता हरीसींग सियाबाई बेवा प्रेमसिंह मीराबाई पुत्री प्रेमसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	659	1.070	1.070
			752	0.730	0.730

15	वीरसिंह पिता गुमानसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48	0.160	0.160	
			306	0.140	0.140	
			516	0.620	0.620	
			562	0.900	0.900	
			570	0.860	0.860	
			575	0.180	0.180	
			611	0.790	0.790	
			620	0.610	0.610	
16	किशोरसिंग जवारसिंग प्यारीबाई हरीबाई पिता धोकल जगतसिंग लक्ष्मनसिंग हरपाल पिता मंरलसिंग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	619	0.290	0.290	
			662	0.670	0.670	
			807	0.280	0.280	
17	हीरत सींग पिता मानसींग सा. इमलिया खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71	0.540	0.540	
			75/2	0.400	0.400	
18	लाल सिंह राजपाल शिवराज सिंह रामपालसिंह पिता घूमन सिंह सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72	0.340	0.340	
			730	0.350	0.350	
			731/2	0.250	0.250	
19	अमोलसिंग निजामसिंग खूबसिंग राधा लीला रामवती पिता अनंतसिंग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	73	0.340	0.340	
			841	1.340	1.340	
20	विशाल ना. वा. पिता भगवानसिंग खेतसिंग ना.वा. पिता जगदीश सींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	140	1.710	1.710	
21	गोलराम पिता परम नन्हीबाई पति गोलराम शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	141	0.860	0.860	
22	कल्याणसिंह हल्केसींग पिता मंगल बड़ीबहू बेवा मंगलमंगल भगवानदास लक्ष्मन पिता प्रतापसिंह मेघराज नाबा पिता चन्द्रभान परताप बेवा चन्द्रभान भूमि स्वामी गिरजाबाई बेवा खुमान नन्हीबाई बेवा प्रानसींग निरननसींग देवीसींग चरन विश्राम उधम सींग पिता मल्थूसींग सुमंत्रा बेवा मल्थूसींग पता सा. देहभूमि स्वामी	भूमि स्वामी	144	0.460	0.460	
			217	0.050	0.050	
			218	0.050	0.050	
			545	0.270	0.270	
			681	0.130	0.130	
			683	0.040	0.040	
			702	0.210	0.210	
			749	0.400	0.400	
757	0.240	0.240				
23	धरमसींग पिता किसोर सींग जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	151	0.360	0.360	
			582/2	0.600	0.600	
24	खलकसींग मेघराज अमोलसींग चैनसींग पिता तुलसीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	155	0.500	0.500	
			162	0.650	0.650	
			163/2	0.130	0.130	
25	जनकसिंह दयाराम पितारामसींग वीरसींग पंचम भगुन्त पिता चेतु ईदलसींगहम्मीरसींग वा. भगतसींग भूमि स्वामी रगवीर धरमाबाई बेवा हल्कूसींग ना.वा. पिता इमरतसींग रामकली पुत्री इमरतसींग पाव खुदमां पानबाई बेवा इमरत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	164	0.340	0.340	
			173	0.540	0.540	
			174/1	1.300	1.300	
			199	0.150	0.150	
			200	0.180	0.180	

26	तखतसिंह दौलतसिंह पिता मुन्डे उमेदसींग राजेन्द्र पिता हरीसींग मीराबाई कलाबाई भानवती भूरी पुत्री हीरासींग दशोदा बाई बेबा हीरासींग कडोरी नन्हेभाई पंचम ना वा पिता बा पालक भगवानसींग कल्यान नल्थू बाबूसींग शांतिबाई पिता मलखानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	166	0.240	0.240
			169	0.300	0.300
			624	0.210	0.210
			685	0.390	0.390
			755	0.490	0.490
27	सरजूबाई उर्फ बड़ीबह बेवा परबूसिंह स्यानी बेवा परबूसिंह रामकली कलूचंदाबाई पुत्री परबूसिंह भूमि स्वामी अवयस्क ववल्ल व वली दलूसींग सूरत पिता पुसउ अनंतसिंह पितारतन सिंह नाथूराम साबूलाल भूमि स्वामी पिता नंदलाल शंकरलाल पिता पर्वत अर्जनसिंह पिता तेज सिंह मोटीबाई बेवा भगवानसिंह धीरजसिंह पिता तेजसिंहदुरगसींग भगतसींग पहारसींगपिता अनरथसिंह सुगंधीबाईसीतीबाई पुत्री अनरथसींग भूमि स्वामी रामकली बाई वेवा अनरथसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167	0.280	0.280
			168	0.390	0.390
			183	0.320	0.320
			184	0.230	0.230
28	जोधनसिंह पिता गोपी सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	170	0.650	0.650
			171	0.900	0.900
			185	0.280	0.280
			220	0.330	0.330
			756	0.540	0.540
29	हाकमसींग पिता हिम्मतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	175	0.600	0.600
30	करनसींग पिता अनंतसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176	0.270	0.270
			797	0.770	0.770
			798	0.170	0.170
31	जगभान विन्द्रावन पिताकडोरी दशोदाबाई बेवा कडोरी मुलाबाई बेवा हल्केसींगराघवेन्द्र अव. भूमि स्वामी वल्द हल्केसींग व वली मांमुलाबाई बेवा हल्केसींग हिम्मतसिंह हिम्मतसिंहनिजामसिंह पिता मुलझार भूमि स्वामी सिंह गुडडीबाई पुम्मीबाईभूरिबाई पिता गुलझारसिंह बड़ीबहू वेवा गुलझारसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	177	0.400	0.400
32	नीमाबाई पति रामसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178	0.180	0.180
			179/2	0.060	0.060
			180/1	0.060	0.060
33	मीराबाई पति भगवानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	181	0.620	0.620
34	रंधीरसींग पिता वीरसींग भगवानसींग पिता धनश्याम पता सा. मुड़िया गुसाई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	182	1.300	1.300
35	भैयालाल पिता मुलू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	187	0.240	0.240
			252	0.880	0.880
36	उमेद पिता हीरासींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	188	0.230	0.230
37	सुरेन्द्र सींग पिता दरयावसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	189/2	0.810	0.810
			195/1	0.430	0.430
38	महरवान प्रानसींग पिताहल्कू गंदाबाई पुत्री हल्कू रमलाबाई बेवा हल्कू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	190	0.880	0.880

39	दशोदाबाई पति हीरासिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	191	0.880	0.880
			192	0.500	0.500
40	चंदनसींग पिता सूरतसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	193	0.780	0.780
41	लक्ष्मण पिता खुमान सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	194/2	0.170	0.170
			782/2	0.390	0.390
			815	0.830	0.830
42	जयसिंह कल्यानसिंह ना.वा. वल्द व बली उत्तमसिंह पिता मूरतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	197/2	0.070	0.070
			229/2	0.020	0.020
			232/2	0.250	0.250
			778/2	0.110	0.110
			779/2	0.120	0.120
43	मनई पिता खिलान बृजलाल दीपक बा. सुगरा नाबापिता नारान पूजा बदना नाबा पुत्री नारान जयती पिता नारानरामवती बेवा नारान चढार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	198/1	0.100	0.100
			776/1	0.340	0.340
			777/1	0.330	0.330
44	मंदिर जगदम्बे मा मुह. रतनसींग दरयावसींगगुलाबसींग सुकदीन पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	149/2	0.160	0.160
			201/2	0.230	0.230
			763/2	0.500	0.500
			764/2	0.180	0.180
45	बहादुर पिता रल्लीसींग देवकाबाई पुत्री रल्लीसींग नारानसींग पिता पखूमेहरबान सींग पानसींग पिताहल्कूसींगधीरजसींग जगदीशसींग देशराज सींग पितासरमरसींग पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	202/1	0.020	0.020
			202/2	0.020	0.020
			203/1	0.050	0.050
			203/2	0.040	0.040
			204/1	0.050	0.050
			204/2	0.060	0.060
			205/1	0.120	0.120
			205/2	0.110	0.110
			498/1	0.390	0.390
			498/2	0.400	0.400
			509	0.010	0.010
			684/1	0.030	0.030
			684/2	0.030	0.030
			688/1	0.110	0.110
			688/2	0.120	0.120
			701/1	0.260	0.260
			701/2	0.250	0.250
724/1	0.260	0.260			
724/2	0.070	0.070			
724/3	0.450	0.450			
726/1	0.180	0.180			
726/2	0.190	0.190			
734/1	0.240	0.240			

			734/2	0.240	0.240	
			737/1	0.080	0.080	
			737/2	0.070	0.070	
			745/1	0.270	0.270	
			745/2	0.270	0.270	
			747/1	0.270	0.270	
			747/2	0.270	0.270	
			760/1	0.080	0.080	
			760/2	0.090	0.090	
			767/1	0.070	0.070	
			767/2	0.070	0.070	
			799/1	0.480	0.480	
			799/2	0.670	0.670	
			803/1	0.100	0.100	
			803/2	0.110	0.110	
			804/1	0.060	0.060	
			804/2	0.050	0.050	
			805/1	0.100	0.100	
			805/2	0.090	0.090	
46	मेहरवानसिंह प्रानसिंह पिता हल्कूसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	202/3	0.020	0.020	
			203/3	0.040	0.040	
			204/3	0.060	0.060	
			205/3	0.120	0.120	
			498/3	0.190	0.190	
			684/3	0.030	0.030	
			688/3	0.110	0.110	
			701/3	0.260	0.260	
			726/3	0.190	0.190	
			734/3	0.240	0.240	
			737/3	0.070	0.070	
			745/3	0.280	0.280	
			747/3	0.270	0.270	
			760/3	0.090	0.090	
			767/3	0.070	0.070	
			799/3	0.290	0.290	
			803/3	0.100	0.100	
			804/3	0.050	0.050	
			805/3	0.100	0.100	
47	नंदकिशोर बालकिशन पिता दरउ रमेश पिता दुन्डा लच्छीवाई बेवा हुन्डा कंछेदी पिता पिरुवा धनवाई बेवा पिरुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207	0.140	0.140	
48	घंसा पिता भैयालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	159/2	0.250	0.250	
			159/3	0.380	0.380	
			208	0.490	0.490	
			209	0.250	0.250	

49	हल्कीबहू बेवा रगवीरसींग शंकरसींग मेहरवानसींग कल्यानसींगधीरजसींग मुन्नालाल लाङलीबाई बेवा रगवीरसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/1	0.190	0.190	
			211/1	0.040	0.040	
			297/1	0.070	0.070	
			773/1	0.290	0.290	
			775/1	0.410	0.410	
			816/1	0.340	0.340	
50	घनसींग श्यामबाई पिता लक्ष्मन बारीबाई बेवा लछमन देवी मुन्ना पिता दलीप कोसाबाई बेवा दलीपनथू पिता मंगल केशरबाई पुत्री मंगलसिंह बड़ीबहू मंगलसिंह भूमि स्वामी अमोलसिंह पिता अनन्त पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	212	0.270	0.270	
51	हीरालाल पिता अमानसिंहबड़ी बहू बेवा मुन्डे रंधीरसींग जगतसींग पहाड़सींग पिता मुन्डे भूमि स्वामी रामबाई पुत्री मुन्डे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	213	0.110	0.110	
52	नथूसिंह पिता मंगल केशरबाई पुत्री मंगल बड़ीबहू बेवा मंगल धनसींग पिता लछमन श्यामबाई पिता लछमन बारीबाई बेवा लछमन देवी मुन्नापिता दलीप कोसाबाई बेवा दलीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	149/1	0.160	0.160	
			201/1	0.240	0.240	
			214/1	0.040	0.040	
			411/4	0.030	0.030	
			763/1	0.500	0.500	
			764/1	0.170	0.170	
53	परमानंद पिता रल्ली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	215	0.150	0.150	
			725/1	0.200	0.200	
			789/1	0.440	0.440	
54	धीरज सींग पिता भैयालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	216	0.110	0.110	
			664	0.040	0.040	
			666	1.630	1.630	
			686	0.400	0.400	
			687	0.210	0.210	
			705	0.150	0.150	
			748	0.340	0.340	
			759	0.590	0.590	
55	मोहन रामप्यारी पिता पुरन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	219	0.100	0.100	
			725/3	0.100	0.100	
56	अरजनसिंह पिता तेजसिंहमोतीबाई बेवा भगवान सिंह धन्नालाल पुत्री तेजसिंहदुरगसींग भगतसींग पहारसींग भूमि स्वामी पित अनरथसींग सुगंधीबाई शांतिबाई पुत्री अनरथ सींग रामकलीबाई बेवा अनरथसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	224	0.740	0.740	
			348	0.720	0.720	
			823	1.540	1.540	

57	जगभान विन्दावन पिताकड़ोरी मुलाबाई बेवा हल्के सींग राघवेन्द्र अव्यस्कवलद हल्के सींग व संरक्षक भूमि स्वामी मां मुलाबाई बेवा हल्केसींगहीरालाल पिता चिमन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	225	0.510	0.510	
58	हिम्मतसींग पिता गुलझार सींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	226	1.040	1.040	
59	चंदनसींग पिता दरयावसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	227	0.400	0.400	
			228	0.400	0.400	
			711/2	0.420	0.420	
60	मुलाबाई पुत्री दयालीगुलाबरानी बेवा दयाली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	231/2	0.230	0.230	
61	रामसींग पिता दलसींग राजाराम पिता सूरतसींग कुसुमबाई चदाबाईपिता पखूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229/1	0.200	0.200	
			232/1	0.300	0.300	
			179/1	0.060	0.060	
			197/1	0.080	0.080	
			778/1	0.100	0.100	
			779/1	0.110	0.110	
			795	0.130	0.130	
			800/1	0.260	0.260	
			801/1	0.290	0.290	
802/1	0.090	0.090				
62	देशराज सींग पिता सम्मरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	233	0.710	0.710	
			340	0.350	0.350	
63	निरपत पिता खुमान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	235	0.290	0.290	
64	हरपालसिंह पिता मंगलसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	231/1	0.220	0.220	
			236	0.170	0.170	
65	झलकन सींग पिता परसादी सींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	237	0.250	0.250	
			573/4	0.370	0.370	
			610/2	0.250	0.250	
			833/2	0.400	0.400	
66	नंदलाल परमसींग पितामिरचे मेवाबाई सोनाबाई बेटीबाई पुत्री मिरचेश्यामबाई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238	0.100	0.100	
			580	1.100	1.100	
			621	0.680	0.680	
			625	0.680	0.680	
			637	0.350	0.350	
			640	0.010	0.010	
67	तेजाबाई बेवा सुक्का धरमूअजुध्दी पिता पुट्टी प्रेमबाई नन्नीबाई पुत्रीपुट्टी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	240	0.420	0.420	
68	हीरालाल सुन्दरलाल अच्छेलाल रामलाल पिता चिमन कौसाबाई रामकली गनेशीबाई सुमंत्राबाई पिता चिमन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	241	0.400	0.400	
			295	0.100	0.100	
69	सोनिया पति राजीव कुमार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	247	0.940	0.940	

70	लक्ष्मीबाई बेवा अच्छेलाल राजाराम सल्लो पिता अच्छेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	248	1.080	1.080	
			330	0.410	0.410	
			335	0.230	0.230	
71	कोमलबाई पति रामप्रसाद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	249	0.280	0.280	
			250/3	0.340	0.340	
72	लछमन सींग पिता मंगलसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	250/1	0.930	0.930	
			250/2	0.930	0.930	
73	किसना पिता मिरचू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	251	0.200	0.200	
			268	0.200	0.200	
74	बृजलाल पिता धरभूरिजन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	253/1	0.860	0.860	
75	लक्ष्मीबाई पति श्रीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	253/2	0.860	0.860	
76	शिमू मंजू घासीराम विशाल पिता रत्ते शांति क्रांति पिता रत्ते भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	256	0.800	0.800	
77	देवी पिता खजुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	257/1	1.000	1.000	
78	देवी खिलान पिता खंजुवाकाशीबाई बेवा खंजुवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	257/2	1.800	1.800	
79	राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण पता निवासी कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	257/3	0.200	0.200	
80	मेघराज बलु तुलसीराम मिठईपिता तुलसीराम थानसींग ना.बा. वल्द वली जनकसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	259	1.100	1.100	
81	रघुनाथसिंह कम्मोदसिंह पिता खुमानसिंह मु.सरस्वती बाई बेवा खुमानसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	261	0.380	0.380	
			300	0.170	0.170	
			301	0.170	0.170	
			302	0.350	0.350	
			304	0.330	0.330	
82	मुलुवा पिता भुज्जा बड़ीबहू बेवा भुज्जा बिहारी रामकिशन हरी किशन पितामंगल रामवती सरस्वती भूमि स्वामी कमलाबाई पुत्री मंगल खेमाबाई बेवा मंगल मनीराम राम भरोसी पिता पुनुवा कस्तूरीबाई पुत्री पुनुवा भूमि स्वामी नन्हीबाई बेवा पुनुवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	262	0.380	0.380	
			644	0.010	0.010	
83	तखतसिंह पिता सादू गिरवरपिता गोपाल बड़ी बिन्ना हल्की बिन्ना पुत्री गोपाल भूमि स्वामी जमनाबाई बेवा धोकलसिंह मंगलसिंह किशोरसिंह जवार सिंह पिता धोकलसिंह हीराबाई प्यारीबाई पुत्री धोकल पता सा. देह भूमि स्वामी बलीराम जगभान बहादुरसिंह लछमनसिंह देशराज पिता जवारसिंह केतकीबाई पुत्री जवारसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	266	8.460	8.460	
84	प्रहलाद सींग पिता रतन सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	268/3	1.420	1.420	
			294/2	0.040	0.040	
			299/2	0.040	0.040	
			305/3	0.040	0.040	
			346/3	0.110	0.110	
			479/2	0.500	0.500	
			586/2	0.750	0.750	

85	शिवपाल सींग पिता गुलाब सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	267	0.300	0.300	
			280/1	1.000	1.000	
			283	0.940	0.940	
86	धनुवा पिता रगवीरया पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	269	0.400	0.400	
87	रमेश खुमान हरदू पुत्र गरीबादुर्गाबाई बेवा गरीबा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	270	0.400	0.400	
88	अरविन्द भूरीबाई पितानारयण पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	271	0.400	0.400	
89	गनेश पिता बारेलाल पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	272	0.400	0.400	
90	सुखवती पति हमीर सींग पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	273	0.400	0.400	
91	श्यामला पिता हल्कुवा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	274	0.400	0.400	
92	नारायण पिता खिलान पता सा. देह खातेदार	भूमि स्वामी	278	0.400	0.400	
			281	0.640	0.640	
			323	0.570	0.570	
			501	0.030	0.030	
			638	0.070	0.070	
			792	0.410	0.410	
			808	1.190	1.190	
93	देवी पिता गनेश हल्लीबाई पति देवी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	279/2	0.110	0.110	
			282	0.490	0.490	
94	श्रीराम सींग पिता गुलाब सींग पता निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	280/2	1.000	1.000	
			322	0.860	0.860	
95	सुजानसिंह बल्दगुलाबसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	280/3	1.100	1.100	
			296	0.120	0.120	
			307	0.440	0.440	
			309/2	0.410	0.410	
			310/2	0.060	0.060	
			318/2	1.000	1.000	
96	शिवराज सींग पिता गुलाब सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	280/4	1.000	1.000	
			308/2	0.020	0.020	
			310/3	0.400	0.400	
			328	0.320	0.320	
			345	0.420	0.420	
97	बल्दवान पिता घूमनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	284	2.300	2.300	
			333	0.260	0.260	
			334	0.260	0.260	
			476	0.360	0.360	
			490	1.210	1.210	
			492	0.600	0.600	
			632	0.030	0.030	

98	लछुवा पिता कुदुं पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	285	0.400	0.400
99	रमले गुवन्दी मूलचंद सरस्वती खरगो मलथो पिता बल्ला छोटीबाई बल्ला पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	286	0.400	0.400
100	दिविया पिता दलीप पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	287	0.400	0.400
101	दयाली पिता ओपला पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	288	0.400	0.400
102	अनन्दी पुत्र जुगरूवाबड़ीबहू बेवा जुगरूवा रामस्वरूप रामकली पिता जुगरूवा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	289	0.400	0.400
103	हरनाम रवि रामेश्वर रामदास मिहीलाल मनोहर रूपा पिता परषोत्तम सरस्वती बेवा परषोत्तम पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	290	0.400	0.400
104	लछुवा पिता हल्लुवा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	291	0.400	0.400
105	गफुवा पिता खिलान पता सा. देह शासकीय पट्टेदार	भूमि स्वामी	292	0.400	0.400
106	धीरज सींग पिता गुलाबसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	293/1	0.450	0.450
			499	0.030	0.030
107	हम्मिरसींग पिता बख्त सींग भूमि स्वामी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	293/2	1.280	1.280
			316	0.130	0.130
			317	0.090	0.090
			608	0.550	0.550
108	राजेन्द्रसींग पहलाद सींग पिता रतनसींग सजरबाई अगूरीबाई पुत्री रतनसींगउमाबाई बेवा रतनसींग कुंजनसींग हीरासींग कोमलसींग सरजूबाईगुलाबबाई पिता बाबूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	294/1	0.150	0.150
			305/1	0.070	0.070
			308/1	0.350	0.350
			309/1	0.420	0.420
			310/1	0.440	0.440
			346/1	0.460	0.460
109	तखतसिंह पिता सादू गिरवरसिंह गोपाल बड़ी बिन्ना हल्की बिन्ना पुत्री गोपाल भूमि स्वामी जमनाबाई बेवा धोकलसिंह मंगलसिंह किशोरसिंह जवार सिंह पिता धोकलसिंह हीराबाई प्यारीबाई पुत्री धोकल पता सा.देह भूमि स्वामी बलीराम जगभान बहादुरसिंहलछमनसिंह देशराज पिता जवारसिंह क भूमि स्वामी वीरसिंह पिता गज्जू सियाबाई पता मंगलसींग पिता औतारसींग भूमि स्वामी बेवा धोकलसिंह हरीबाईप्यारीबाई भूमि स्वामी बेवा धोकलसिंह हरीबाईप्यारीबाई पुत्री धोकलसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	663	0.520	0.520
			806	0.520	0.520
110	रतनसींग पिता रगवीर सिंहजनकसींग कुंजनसींग हीरासींग कोमलसींग पिता बाबूसींग सूरजबाई पुत्री गुलाब बाई पुत्री बाबूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	311	0.190	0.190
			312	0.170	0.170
			313	0.050	0.050
111	भगवानसींग देवीसींग लक्ष्मनसींग मुकुन्दसींग जगभानसींग सुम्मेरसींग पैराबाई पिता खुमान सींग नीमा बाई बेवा खुमानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	314	0.190	0.190
			342	0.320	0.320
112	सम्मरसिंह पिता तरवरसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	315	0.150	0.150
			341	0.140	0.140
			828	0.480	0.480
			830	0.150	0.150
			831	0.370	0.370
			832	0.570	0.570

113	गुलाबसींग पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	318/1	1.720	1.720	
			319	0.340	0.340	
			339	0.790	0.790	
			555	1.200	1.200	
114	घंसू पिता लक्ष्मन सरोजवाई पति घंसू भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	320	0.810	0.810	
115	श्यामलाल सीताराम पिता हीरालाल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	321	0.340	0.340	
116	धीरजसींग पिता गुलाबसींग गुमानसींग पिता तरवरसींग संपटसींग पिता तरवरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	325	1.230	1.230	
117	नाथूराम साबूलाल पितानंदलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	331	0.080	0.080	
			741	0.260	0.260	
118	महराजसींग पिता सुकसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	332	0.320	0.320	
			512	0.250	0.250	
			513/1	0.080	0.080	
119	रामलाल पिता चिमन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	337	0.920	0.920	
120	उत्तमसींग पिता परसादी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	343	0.430	0.430	
			573/2	0.380	0.380	
			608/1	0.440	0.440	
121	भगवानसिंह लछमन सिंह मकुन्दसींग देवीसींग जगभान सिंह सुमरसींग केराबाई पिता खुमानसींग सम्मरसींग पिता तरवरसींग हमीर सींग पिता बखतसींग मजली बहू बेबा बखतसींग शिवराज पिता लटकनसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	344/1	0.640	0.640	
122	मथुराबाई पति वीरसींग सा. कदारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	344/2	0.400	0.400	
123	जनरसींग कुजनसींग हीरासींग कोमलसींग पिता बाबूसींग सुरजबाई गुलाबबाई पुत्री बाबूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	294/3	0.040	0.040	
			299/1	0.050	0.050	
			305/2	0.030	0.030	
			346/2	0.120	0.120	
			479/1	0.500	0.500	
			585/1	0.160	0.160	
			586/1	0.020	0.020	
592/1	0.320	0.320				
124	जगभान विन्द्रावन पि. कडोरी राघवेन्द्र अव. वल्द हल्के सींग व संरक्षक व खुद मां भूमि स्वामी मुलाबाई बेबा हल्केसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	349	0.270	0.270	
125	बड़ी बहू बेबा गुलझार सिंह हिम्मतसींग निजामसींग पिता गुलझार गुडडीबाई पिम्मीबाई पुत्री गुलझारसिंह भूमि स्वामी बड़ी बहू बेबा मंगलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	350	0.290	0.290	
126	हिम्मतसींग पिता गुलझार सींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	351	0.070	0.070	
127	दरयावसींग गुलावसींग पिता हरीसींग महराजसींग गौराबाई इन्दरबाई पिता सुकसींग बेनीबाई बेबा सुकसींग जयसींग पिता रतनसींग सहोद्रा त्रिवेणी पुत्री रतनसींग हरदेव जगदेवपिता कीरत नथीबाई बेबा कीरत भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	354/1	0.210	0.210	
			354/3	0.210	0.210	

128	राजाराम पिता अच्छेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	357/1	0.400	0.400	
129	जनकसींग कुंजनसींग हीरासींगकोमलसींग पिता बाबूसींग सूरजसींग गुलाबबाई पुत्री बाबूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	478	0.840	0.840	
			482	0.410	0.410	
			839	0.950	0.950	
			840/1	0.540	0.540	
130	करनसींग डालसींग उर्फहनुमतसींग पिस. टेकसिंह पता सा. पारोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	480	0.700	0.700	
			628	0.130	0.130	
131	सत्यपालसींग भीकम सींग पिता बहादुर सींग कुसमबाई पुत्री बहादुर सींग ताराबाई बेवा बहादुर सींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	481	0.320	0.320	
			579/1	0.250	0.250	
			599	0.300	0.300	
			617	0.280	0.280	
			618	0.210	0.210	
132	राजेन्द्रसिंह पिता रतनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	483	0.860	0.860	
			826	0.690	0.690	
			834	0.470	0.470	
133	जयसिंह पिता रतन सींग सहोदाबाई त्रिवेणीबाई पुत्री रतनसींग हरदेव सींग जगदेवसींग पिता कीरतसींग नत्थीबाई बेवा कीरतसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	411/1	0.010	0.010	
			487	0.200	0.200	
			600	1.560	1.560	
			655	1.000	1.000	
			668	0.290	0.290	
			669	0.670	0.670	
134	प्रहलादसिंह पिता भैयालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	488	0.530	0.530	
			489	0.380	0.380	
135	बल्दवान सिंह पिता घूमन सिंह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	491	0.300	0.300	
136	महाराजसींग पिता सुखसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	493	0.270	0.270	
			494	0.750	0.750	
			495	0.370	0.370	
			496	1.080	1.080	
137	परसादी सींग पिता खुमानसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	500	0.020	0.020	
138	हरिराम पिता जसरथप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	503	0.020	0.020	
			523	0.650	0.650	
			568	0.710	0.710	
139	बल्दवान सिंह पिता घूमन सिंह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	504	0.030	0.030	
140	पूरनसींग पिता मूरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	505	0.040	0.040	
			547	1.540	1.540	
			558	1.080	1.080	
			563	0.650	0.650	
141	चन्द्राबाई पति हरिसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	506	0.020	0.020	

142	वल्लुसिंह पिता भगुन्तसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	507	0.020	0.020	
			510	0.150	0.150	
			514	0.450	0.450	
			548	1.260	1.260	
			552	0.420	0.420	
			557	0.660	0.660	
			564	0.440	0.440	
			565	0.490	0.490	
			566	0.610	0.610	
			569	0.350	0.350	
604	0.550	0.550				
143	नारायण मनई खिलान गनेशगोविंद पुनू पिता भरोसा बबूललसा पंचू प्रान पिता बूठा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	508	0.010	0.010	
144	सेतु पिता लालसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	511	0.230	0.230	
145	बहादुर पिता रल्ली देवकाबाई पुत्री रल्ली शंकरसिंह पिता बखतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	515	0.600	0.600	
146	रमुवा पिता अजीता पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	517/1	0.120	0.120	
147	निजामसिंह पिता गुलझारसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	517/2	0.400	0.400	
148	स्नेहलता बेबा सुरेशचंद्र सुनील मनोज सुभाष रत्ना पिता सुरेशचन्द्र पता सा. बांदरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	517/3	0.240	0.240	
			520/1	0.400	0.400	
149	प्रेमप्रसाद पिता जशरथप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	520/2	0.370	0.370	
			521	0.610	0.610	
			567	0.660	0.660	
150	अनतराम पिता हरीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	522/1	0.500	0.500	
151	राजेश पिता नारान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	522/2	0.500	0.500	
152	दलीप सूरज पिता नथुवामोहनबाई ललतीबाई पुत्री नथुवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	524	0.450	0.450	
			525	0.810	0.810	
153	धीरज सांग पिता गुलाबसिंह पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	526	0.620	0.620	
			529	0.570	0.570	
			530	0.370	0.370	
			531	0.460	0.460	
			539	1.020	1.020	
			541	0.360	0.360	
			631	1.120	1.120	
			633	0.060	0.060	
			836	1.200	1.200	
838	0.820	0.820				
154	बिहारी रामकिशन हरीकिशन पिता मंगलरामवती सरस्यती पिता पुत्री मंगल बडीबहु बेबा मंगल साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	532	0.890	0.890	
			536	0.910	0.910	

155	मंदिर श्री देवस्वामीमहावीर स्वामीजी बाक देह मुण्डशरथप्रसाद प्रबंधककलेक्टर महोदय सागर पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	534	1.200	1.200	
			537	0.630	0.630	
			538	0.930	0.930	
			605	0.600	0.600	
			784	0.400	0.400	
			785	0.800	0.800	
156	बिहारी रामकिश हरकिशपिता मंगल रामवतीबाई सुती बाई कमलाबाई पुत्री मंगलमंझली बहू बेया मंगल पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	535	0.380	0.380	
			551	0.190	0.190	
157	दशोदाबाई पति जवारासिंहजनकासिंह कुजनासिंह हीरा सोंग कोमलसोंग पिता बाबूसोंग सरजूबाई भूमि स्वामी गुलाबबाई पुत्री बाबूसोंग पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	540	0.600	0.600	
158	बकीलसोंग नाथ्याणपता धीरज सोंग पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	540/2	0.650	0.650	
159	चतुर्भुज पिताहल्कू पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	542	0.350	0.350	
			577/1	0.510	0.510	
			594/2	0.230	0.230	
			614/2	0.550	0.550	
			629	0.070	0.070	
160	उमराव सोंग पिता भैयालाल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	543	0.410	0.410	
			578/1	0.250	0.250	
			602/1	0.430	0.430	
			615/1	0.320	0.320	
161	खतासिंह पिता लालासिंह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	546	1.400	1.400	
			560	0.710	0.710	
162	कलू देवकरनकोसियाबाई नाथ्याणगुलाब माती खिलान पिता बल्दसुदामाबाई पति गुलाब पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	553	0.750	0.750	
			622	0.270	0.270	
			626	0.380	0.380	
163	मायाबाई पति धीरजसोंग पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	554	0.560	0.560	
164	कलू देवकरन पिता गुलाब कोसाबाई पुत्री गुलाब भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	556	0.790	0.790	
165	देवसोंग पिता हलकू पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	576	0.260	0.260	
			577/2	0.240	0.240	
			594/1	0.540	0.540	
			614/1	0.550	0.550	
166	जगमोहन पिता प्रह्लादासिंह पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	582	0.350	0.350	
			584	0.260	0.260	
167	महादेव मुन्नीसिंह पिताचितरासिंह पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	589	0.880	0.880	
168	अरविंदकुमार पिता बाबूलाल पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	590	1.240	1.240	
169	लखू पिताबारेलाल शौलाबाईकल्लोबाई पुत्री बारेलाल साहद्राबाई बेवा बारेलालबलू पिता खरजाबाई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	591	1.090	1.090	
170	मंगल पिता टीकाराम पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	595	0.040	0.040	
171	ताराबाई पति बहादुरसोंग पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	598	0.300	0.300	

172	खतासिंग पिता भयालाल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	263/2	0.120	0.120	
			578/2	0.050	0.050	
			579/2	0.210	0.210	
			601	0.330	0.330	
			602/2	0.100	0.100	
			630	0.060	0.060	
173	आशाराम पिता उमराव पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	603	0.810	0.810	
174	मेघराज पिता चतुर्भुज नेहरसिंग पिता देवीसिंग जाति लोधी पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	612	1.200	1.200	
			635	0.060	0.060	
175	जनकासिंह दयाराम पितापचमसिंह रामसिंग वीरसिंग इंदलसिंग हन्मीरसिंग वाष्मगतसिंग रगवीरसिंग नाथ्वा भूमि स्वामी पिता इमरतसिंग रामकलीपुत्री इमरतसिंग पाणव खुद मां पानबाई बेया इमरतसिंगधरमाबाई बेया हल्कू पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	613	0.930	0.930	
176	हरिसिंग पिता खतसिंग पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	615/2	0.140	0.140	
			616	0.460	0.460	
177	देवसिंग पिता हल्कूसिंग पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	623	0.360	0.360	
178	भदैया पिता चिन्ट पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	627	0.310	0.310	
			700	0.190	0.190	
			754	0.880	0.880	
179	नमदा बाई पति बोरन शांतिबाई पति राकेश कुमार पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	634	0.050	0.050	
180	बलुव पिता सुक्का पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	639	0.040	0.040	
181	सुखनदन पिता परमलाल आहिरवार पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	642	0.040	0.040	
182	देवी खिलान पिता खुन्जुवाकाशीबाई बेया खन्जुवा बलुवा पिता सुक्का नन्हीबाई श्यामबाई पुत्री घसीटा भूमि स्वामी मंझलीबहू बेया घसीटा पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	643	0.040	0.040	
183	धीरजसिंग जगदीश देशराजरामसिंग पिता सम्मरसिंग पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	654	0.960	0.960	
184	काशीराम बेनीबाई पिता दयाल नथू दालत पितालक्ष्मन पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	656	0.830	0.830	
185	कलू देवकरनकासियाबाई नाथ्वाबाई पिता गुलाब सुदामाबाई पतिगुलाब पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	657	0.620	0.620	
186	पचम सोंग पिता किशोरसिंग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	658	0.640	0.640	
187	मंगलसिंग पिता औतारसिंग पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	661/2	0.090	0.090	
188	ममताबाई बेया चन्द्रभान मेघराज नाथ्वापिता चन्द्रभान सोंग पाण्वा ममताबाई जाति लोधी पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	667	0.280	0.280	
			703	0.320	0.320	
			704	0.140	0.140	
189	मलखान पिता मुलू तखतासिंहहरासिंह दालतसिंह पिता मुन्डे काशीबाई बेया पुनूलच्छीबाई पुत्री मानसिंह भूमि स्वामी फूलाबाई पति घुमनसिंहवन्द्यान जगभान छोटेभाई पुत्री मनबाई रामकलीपुत्री मनबाई पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	670	0.120	0.120	
190	दालतसिंह पिता अमानसिंह पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	653	0.350	0.350	
			680	0.090	0.090	

191	पूरन धानिया मुन्नालाल पिताछोटा मायाबाई पुत्री छोटा पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	682	0.060	0.060
192	भैयालाल पिता खलकासिंहफूलबाई पति परवतासिंह पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	689	0.150	0.150
193	कछ्पट्टी केशर बाई चंदीबाई पिता अनंत सींग ग्याबाई बेबा अनंतसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	690	0.070	0.070
			794	0.510	0.510
			796	0.350	0.350
194	लालसिंह नाथ्वाध्वलद व वलीधूमनसिंह हरीसिंह नाथ्वाध्वलद वली साबूसिंह पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	706	0.280	0.280
195	तख्तसींग दालतसींग पिता मुन्डेसींगकडोरीसींग नन्हेभाई पंचमसींग नाबा पिता भगवानसींग बलदवानसींग जगभानसींग छोटेभाई रामकली पिता मनबाई उम्मेदसींग राजेन्दसींगमीराबाई कलाबाई भागवती भूरीबाई पिता हीरासींग दशोदा बाई बेवा हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	708/1	0.320	0.320
196	मेघराज पिता तुलसीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	708/2	0.200	0.200
197	इन्द्राज सिंह पिता जोधनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	708/3	0.160	0.160
198	गजेन्दसींग पिता जोधनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	709	0.320	0.320
199	शिवपालसिंह पिता लटकनसिंह पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	713	0.960	0.960
200	जगभान पिता प्रहलाद सिंह पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	714	0.310	0.310
			715	2.430	2.430
201	करनसिंह गजराजसिंह हरप्रसाद ग्याप्रसाद खिलान सिंह पिता फुल्लौ महरबानप्रानसींग पिता हल्कू भूमि स्वामी गंदाबाई पुत्री हल्कूरमकाबाई बेवा हल्कू पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	717	1.550	1.550
			718	0.330	0.330
202	रूपसींग पिता जनकासिंह जाति लोधी पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	720	1.290	1.290
203	महरबान घूमनसिंह पिताभूरतासिंह पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	729	0.760	0.760
204	तख्तसींह दालतसिंह पिता मुन्डे उम्मेदसींग राजेन्द्र पिता हरीसींग मीराबाई कलाबाई भानवती भूरी पुत्री हीरासींग दशोदा बाई बेबा हीरासींग कडोरी नन्हेभाई पंचम ना यापिता या पालक भगवानसींग खलकसींग पिता तुलसीराम कल्यान नन्धू बाबूसिंह शांतिबाई पिता मलखानसिंह पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	732	0.400	0.400
			738	0.470	0.470
			739	0.470	0.470
205	तख्तसींह हीरासिंह दालतसिंहपिता अमान सिंह पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	736	0.620	0.620
206	प्रताप सींग पिता दरयावसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	711/1	0.180	0.180
			740	0.590	0.590
			751	0.290	0.290
207	भैयालाल पिता खलकासिंहमजली बहू बेवा मुन्डे रधीरासिंह जगतसिंह पहरसिंहपिता मुन्डे पानबाई भूरी भूमि स्वामी बाई राजबाई पिता मुन्डे पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	743	0.350	0.350
			744	0.300	0.300
			750	0.310	0.310
208	विमलाबाई पति धीरजसींग पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	758	0.250	0.250
209	शोभाराम पिता रामप्रसाद पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	780	0.480	0.480
			781	0.360	0.360

210	बहादुर पिता रल्ली देवकाबाई पुत्री रल्ली नारान पिता परकू शकरसिंह पिताबखतसिंह जगभान भूमि स्वामी विन्द्रावन पिता कड़ोरीदशोदाबाई बेवा कड़ोरी मुलाबाई बेवा हल्केसींगराघवेन्द्र अवस्क वल्द भूमि स्वामी हल्के सींग व संरक्षक मामुला बाई बेवा हल्केसींग पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	787	0.840	0.840	
211	आधारसींग सरदारसींग पिता रामसींग लोधी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	788	0.370	0.370	
212	धनाबाई पति जगभानसिंह पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	790	0.420	0.420	
213	प्रह्लादसिंह पिता भैयालालजानकी बाई पति पता साधेहप्रह्लाद सिंह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	791	0.390	0.390	
			810	0.200	0.200	
			811	0.860	0.860	
			812	0.840	0.840	
214	गजेंद्रसींग वल्दाहम्मतसींग पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	793	0.490	0.490	
215	गदाबाई पति उमदसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	800/2	0.260	0.260	
			801/2	0.290	0.290	
			802/2	0.080	0.080	
216	भगवानसींग मकुन्दीसींगदेवीसींग जगभानसींग सुम्भरसींग पिता खुमानसींग पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	814	1.660	1.660	
			821	1.100	1.100	
217	उमरावसींग पिता दरयावसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	195/2	0.270	0.270	
			817	0.430	0.430	
			819	0.260	0.260	
			820	0.280	0.280	
218	धीरजसींग पिता भैयालाल जगभान विन्द्रावन पिता कड़ोरी दशोदाबाई बेवाकड़ोरी मुलाबाई बेवा हल्केसींग भूमि स्वामी राघवेन्द्र अवयस्क वल्द हल्केसींग व संरक्षक मुलाबाई बेवा हल्केसींगमदू हिम्मतसींग निजानसींग भूमि स्वामी गुलझारसींग गुड्डीबाईपिम्मीबाई भूरीबाई पुत्री गुलझारसींग पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	824	0.560	0.560	
			829	0.530	0.530	
219	सुरेंद्रकुमार पिता बाबूलाल पता साधेहदरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	835	1.260	1.260	
220	गुलाबसिंह पिता हरीसिंहरतनसिंह पिता रगवीरसिंह पता साधेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	837	0.640	0.640	
221	सूरतसींग पिता पुसुवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	230	0.470	0.470	
222	निरपत दौलत खिलान पिता उदेत सुशीला बेवा भैयालाल सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	159/1	0.130	0.130	
223	अर्जुनसिंह पिता तेजसिंह मोतीबाई बेवा भगवानसिंह धन्नालाल पुत्री तेजसिंह दुरगसिंह भगतसिंह पहारसिंह पिता अनरतसिंह सुगन्धीबाई शांतिबाई पुत्री अनरतसींग रामकली बाई बेवा अनरतसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	163/1	0.130	0.130	
224	जनकसींग दयाराम पिता रामसींग वीरसींग पंचम भगुन्त पिता चेतु ईदलसींग हम्मीरसींग वा. भगतसींग रगवीर धर्माबाई बेवा हल्केसींग ना.बा. पिता इमरतसींग रामकली पुत्री इमरत सींग पालक व खुद मां पानबाई बेवा इमरत सा. देह	भूमि स्वामी	173	0.540	0.540	
225	निरपत दौलत खिलान पिता उदेत सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	186	0.080	0.080	
226	रामसींग पिता दरयावसींग सा. देह	भूमि स्वामी	189/1	1.250	1.250	
227	मकुन्दी पिता खुमानसींग सा. देह	भूमि स्वामी	194/1	0.170	0.170	
			782/1	0.390	0.390	

228	नथूसींग पिता मंगल केशरबाई पुत्री मंगल बड़ीबहू बेवा मंगल धनसींग पिता लक्षमन धनश्याम पिता लक्षमन बारीबाई बेवा लक्षमन देवी मुन्ना पिता दलीप कोशाबाई बेवा दलीप सा. देह	भूमि स्वामी	214/1	0.040	0.040	
229	पुष्पादेवी बेवा नेमीकुमार उर्फ नेमीचन्द्र राजेशकुमार राजीवकुमार विजयकुमार पिता नेमी कुमार उर्फ नेमीचन्द्र वीणा पुत्री नेमीकुमार उर्फ नेमीचन्द्र सा. देह	भूमि स्वामी	244	1.020	1.020	
230	महेश पिता गनेश सा. देह	भूमि स्वामी	279/1	0.650	0.650	
231	प्रहलाद पिता भैयालाल सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	497	0.480	0.480	
232	गुड्डा पिता निरपत शासकीय पट्टेदार सा. देह	भूमि स्वामी	587	0.490	0.490	
233	चतुर्भुज पिता हल्कू सा. देह	भूमि स्वामी	593	0.300	0.300	
234	प्रेमबाई पति गुलाबसींग सा. देह	भूमि स्वामी	636	0.310	0.310	
235	अमान पिता लच्छू सा. देह	भूमि स्वामी	647	0.130	0.130	
236	हरदेव ना.बा. बल्द कीरतसींग बलीमा मु. नत्थीबाई बेवा कीरतसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	651	0.260	0.260	
			686	0.400	0.400	
237	रामरानी पति कन्हैयालाल अहिरवार सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/1	1.320	1.320	
238	तखसिंह पिता साधू सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26/1	0.070	0.070	
			76/1	0.500	0.500	
239	सियाबाई बेवा प्रेमसींग मीराबाई पिता प्रेमसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	27/4	0.080	0.080	
			659/3	0.240	0.240	
			661/4	0.080	0.080	
240	पुष्पाबाई पति गोविंद सींग निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/2	0.090	0.090	
			211/2	0.020	0.020	
			297/2	0.040	0.040	
			773/2	0.140	0.140	
			775/2	0.200	0.200	
			816/2	0.160	0.160	
241	उदयसींग अमरसींग पिता दयाराम निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	174/2	0.450	0.450	
			789/2	0.440	0.440	
242	जानकीबाई पति हरनाम सींग निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150/3	0.090	0.090	
			211/3	0.020	0.020	
			297/3	0.040	0.040	
			773/3	0.150	0.150	
			775/3	0.200	0.200	
			816/3	0.160	0.160	
243	सरदारसींग पिता पहारसींग निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	198/2	0.100	0.100	
			776/2	0.370	0.370	
			777/2	0.320	0.320	
244	सरदारसींग पिता परसादी सींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	606/2	0.450	0.450	
			833/1	0.400	0.400	
245	गौराबाई इन्दरबाई पिता सुखसींग बेनीबाई बेवा सुखसींग	भूमि स्वामी	404/2	0.010	0.010	
			411/2	0.010	0.010	
246	मुकेश पिता धन्नालाल निवासी खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	513/2	0.400	0.400	
247	रामवती बाई बेवा बाबूलाल सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	549/2	0.520	0.520	

248	धनसींग पिता परसादी सींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	573/1	0.380	0.380
			610/1	0.250	0.250
249	भगवतसींग पिता राजेन्द्रसींग निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	586/3	0.010	0.010
			592/2	0.160	0.160
250	केशरी पिता बल्दवानसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	725/2	0.600	0.600
251	भागबाई पति घूमन सींग निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	731/1	0.600	0.600
252	पानबाई बेवा इमरत सींग निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	174/3	0.900	0.900
			789	0.440	0.440
253	वीरेन्द्र पिता खलकसींग लोधी सा. पगारा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	840/2	0.400	0.400
योग			658	280.580	280.580

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालधौन एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालधौन एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई वित्त्वंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालधौन में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालधौन एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 15-अ-82-19-20-5140

सागर, दिनांक 1 जुलाई 2019

मौजा कोटिया पटवारी हल्का नं. 010 तहसील बंडा

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- (1) परियोजना का नाम :- बण्डा परियोजना बण्डा बांध
- (2) भूमि का विवरण :-
1. जिला सागर
 2. तहसील बण्डा
 3. ग्राम कोटिया
 4. पटवारी हल्का नं. 10
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 92.150 हेक्टेयर
- :: अनुसूची -01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.	अर्जित भूमि (रकवा हे. में.)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	शिवराजसिंह पिता सुम्मेरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	1.770	1.770	
2	प्रीतम पिता बालकिशन जाति यादव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/1	0.900	0.900	
			247	0.650	0.650	
3	बीरसींग पिता बालकिशन यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/2	0.900	0.900	
			245	0.370	0.370	
4	रानी जैन पत्नी सुनील जैन पता सा चन्द्रशेखर वार्ड सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72	1.120	1.120	

5	भूपेन्द्र प्रीतम घनश्याम बीरसींग पिस. बालकिशन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	73	0.280	0.280	
			148/2	0.280	0.280	
			159	0.200	0.200	
			167	0.450	0.450	
			206	1.600	1.600	
			208	0.900	0.900	
			241	0.110	0.110	
			243	0.200	0.200	
			248	0.240	0.240	
6	राजेशपाल अय.पितावली रामनाथ पिता हल्कू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104/1	1.210	1.210	
7	रामनाथ पिता हल्कू यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104/2	0.800	0.800	
			105	0.320	0.320	
			212	0.400	0.400	
8	राजाभाई पिता रामनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	108	0.560	0.560	
			262/3	0.630	0.630	
9	रामनाथ पिता हल्कू बंदी शिवराज खुमानसींग पिता अजुद्धी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109	0.610	0.610	
10	सुमेशरसींग बाबूसींग मरदनसींग धीरजसींग गुलाबसींग पिता सुक्केसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	110/1	0.270	0.270	
			261/1	0.090	0.090	
11	दीपककुमार पिता प्रकाशचन्द पता सा.बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	110/2	0.270	0.270	
			110/3	0.140	0.140	
			179/2	0.270	0.270	
			195/2	1.430	1.430	
			261/2	0.080	0.080	
			261/3	0.040	0.040	
12	प्रकाश पिता भैयालाल जैन पता सा.बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	124	0.050	0.050	
13	धनीराम रगवीर राधेश्यामननेलाल जगदीश हरचरन पिता कच्छेदी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125	0.200	0.200	
14	प्रीतम पिता बालकिशन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	146	0.340	0.340	
15	गोविंद सिंह पिता रगवीर लल्लू पिता रगवीर जूजा शंकर गोपी पिता मोहनलाल भूमि स्वामी रम्मूबाई प्रेमबाई पुत्रीमोहनलाल सजलीबहू बेवा मोहनलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147/1	0.110	0.110	
16	लल्लू पिता रगवीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147/2	0.150	0.150	
17	गोविन्द पिता रगवीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147/3	0.180	0.180	

18	भूपेन्द्र पिता बालकिशन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148/1	0.250	0.250	
19	संतोष पिता ओंकार सुहागरानी वेवा ओंकार सुम्नेरसींग पिता बिहारी पता सा.बमूरा बिनैका भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	149	1.220	1.220	
			257	1.460	1.460	
20	बृजेश ना0वा0वली कल्याण पिता रघुनाथ मरदन पिता कल्याण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150	0.340	0.340	
21	प्रहलाद मर्दन बृजेश पिता कल्याण पाल पता नि. बिलहनी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	151	0.600	0.600	
22	प्रहलाद पिता कल्याणकनई पिता दुरगा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/1	0.810	0.810	
23	प्रहलाद पिता कल्याण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/2	0.040	0.040	
			183/3	0.160	0.160	
			183/4	0.160	0.160	
24	कल्याण पिता दुर्गा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/392	0.610	0.610	
25	देशराज वल्द रामनाथ यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	153	0.310	0.310	
			262/1	0.310	0.310	
			262/2	0.310	0.310	
26	कुसुम शांती नंती कमलापुत्री पल्दू जगरानी बेवा पल्दू अजुद्धी रामनाथपिता हल्कू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	154	0.310	0.310	
			168	0.270	0.270	
			169	0.090	0.090	
			170	0.090	0.090	
			171	0.180	0.180	
			211/2	0.340	0.340	
27	रामनाथ पिता हल्कूशिवराज पिता अजुद्धी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	155	2.000	2.000	
			157	0.540	0.540	
			226	1.800	1.800	
28	वद्री शिवराज खुमान पिता अजुद्धी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	156	0.570	0.570	
			184	1.210	1.210	
			185	0.880	0.880	
29	अमोल पिता बद्रीप्रसाद पुष्पेन्द्र पिता खुमान सींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158/1	0.810	0.810	
			158/2	0.400	0.400	
30	निरनसींग पिता भबूदसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158/3	0.010	0.010	
			163/2	0.440	0.440	
			165	0.950	0.950	
31	लछमनसींग पिता भबूदसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	161	0.550	0.550	
			163/1	0.840	0.840	
32	प्रेमबाई वेवा हरीसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	162	0.690	0.690	
			164	0.750	0.750	
33	सुधीरकुमार सुशीलकुमार पिस.निर्मलकुमार जैन पता सा. बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	166/1	0.450	0.450	
			231/2	0.180	0.180	
34	बद्री शिवराज पिता अजुद्धी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	166/2	0.230	0.230	
			231/3	0.090	0.090	

35	चन्द्ररानी जोजे वद्रीप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	172/1	0.450	0.450	
36	कल्याण पिता दुरगा गडरिया पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178/1	0.520	0.520	
37	कनई पिता दुरगा गडरिया पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178/2	0.530	0.530	
38	सुम्मेरसींग मरदनसींग गुलाबसींग धीरजसींग पिता सुक्केसींग सावित्रीबाई बेवा पंचमसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	179/1	0.220	0.220	
39	सुधीरकुमार पिता निर्मलकुमार जैन पता सा.बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	179/3	0.110	0.110	
			219	1.610	1.610	
40	खुमान ब.अजुद्धीलीलाधर पिता प्रीतम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	180	0.530	0.530	
41	पुष्पेन्द्र पिता खुमान इन्दर पिता बद्री प्रसाद पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	181	0.320	0.320	
42	बद्री पिता अजुद्धी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	182	0.550	0.550	
			228	0.960	0.960	
43	बद्री खुमान पिताअजुद्धी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	183/1	1.170	1.170	
44	कनई पिता दुरगाकल्याण पिता रगन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	183/2	0.400	0.400	
45	देवसींग पिता सुम्मेरसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	187	1.250	1.250	
46	अमृता जैन पत्नि अकुर जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	190	0.490	0.490	
			192	0.230	0.230	
			198	0.150	0.150	
47	गजराज सींग पिता जगतसींग लोधी पता नि.बमूरा विनैका भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	191/1	0.480	0.480	
			200/2	0.300	0.300	
48	भरतसींग पिता जगतसींग पता निवासी ग्राम बमूरा विनैका भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	191/2	0.100	0.100	
			194	0.680	0.680	
49	विजय केशरी उत्तम पितारगवीर पता नि. बमूरा विनैका भूमि स्वामी लडू पिता जूजे पता नि.कोटिया भूमि स्वामी शिबू पिता जुझारसींग पता नि.बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	195/1	1.450	1.450	
			199/1	1.480	1.480	
50	अंकुर पिता प्रकाशचंद जैन पता सा.बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199/2	1.440	1.440	
			204/3	0.400	0.400	
51	लाखनसींग पिता होडरसींगविजयसींग उत्तमसींग केशरीसींग महावीरसींगपिता नारायणसींग भूमि स्वामी बडीबहू बेवा नारायणसींगद्रोपतीबाई मीराबाई पुत्री नारायणसींग कोमलसींगपिता भुजबलसींग भूमि स्वामी सीता कोशीबाई पुत्रीभुजबलसींग पता नि.बमूरा विनैका भूमि स्वामी पोथीबाई जोजे गुलझारसींग पता नि. पारगुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199/3	0.030	0.030	
52	शिबू पिता जुझारसींग पता निवासी बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199/4	0.300	0.300	
			218	1.610	1.610	

53	विजयसिंह बल्द जगतसिंह पता सा.बमूरा बनेका भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	200/1	0.790	0.790	
54	मोती शिबू पिता अमरसींग करतार पिता अमरसींग मोती पिता परमू रम्मोबाई प्रेमबाई पुत्री मोहन लसिया संजली बहू बेबा मोहन लसिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	201/1	0.450	0.450	
55	पप्पू पिता बारे पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	201/2	0.740	0.740	
56	शोभना पति दीपककुमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	201/3	0.920	0.920	
57	महेश पिता शिवप्रसाद करनसींग पिता विजयसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	202/1	0.370	0.370	
			214	0.500	0.500	
			217	2.080	2.080	
58	कल्याण कनई पिता दुरगा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	202/2	0.290	0.290	
			203	0.660	0.660	
			713	1.700	1.700	
			215	0.170	0.170	
			216	0.120	0.120	
59	प्रकाश बल्द मोतीलाल चढार पता सा. डहकुली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	204/1	1.320	1.320	
			205/1	0.680	0.680	
60	रगवीर पिता दुलारे पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	204/2	2.600	2.600	
61	गोविन्द पिता रगवीर यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	205/2	0.500	0.500	
			205/3	0.120	0.120	
62	लखन हल्केभाई नीरज अशोक पिस.भगवानदार केराबाई वेवा भगवानदास पता सा. डहकुली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/1	1.440	1.440	
63	गेंदारानी पति घनश्याम यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207/2	0.200	0.200	
64	खुमानसींग पिता अजुद्धी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210/1	0.200	0.200	
65	घनश्याम पिता बालकिशन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210/2	0.140	0.140	
66	शीलाबाई जोजे रामनाथ यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	211/1	1.010	1.010	
67	नरेन्द्र पिता रामनाथ यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	224/2	0.500	0.500	
68	संतोष ऊर्फ सतनाम पिता रामनाथ पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	225/2	0.500	0.500	

69	शिखराजसिंग पिताअजुद्धी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229	0.360	0.360	
			230	0.310	0.310	
			231/1	0.140	0.140	
			231/4	0.130	0.130	
70	गंगाराम पि०रामनाथ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	232	0.050	0.050	
			253	0.230	0.230	
			254	0.580	0.580	
71	जगदीश पिता पंचम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	235	0.300	0.300	
72	लीला छोटे भाई पिता बडैया बडी विन्ना छोटी विन्ना हल्की विन्ना पुत्री बडैया बडी बहू बेबा बडैया मुठुवाटीकाराम पिता हल्कैया बडीबाई छोटीबाई पुत्रीहल्कैया पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	236	0.520	0.520	
73	भूपेन्द्रसिंग घनश्याम पिस.बालकिशन यादव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	237	0.730	0.730	
			238	0.780	0.780	
			240	0.510	0.510	
			246	0.800	0.800	
			250	0.600	0.600	
74	बीरसिंग पिता बालकिशन लीलाधर पिता प्रीतमसिंग कोमलसिंग वल्द घनश्याम मोहनसिंग पिता भूपेन्द्रसिंग यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	239	0.940	0.940	
			244	0.260	0.260	
			249	0.300	0.300	
75	नथू भूरे इमरत सूरतसिंग रूपसिंग पिता हरीसिंग प्रेमबाई बेबा हरीसिंग पता नि.कानोनी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	242	0.070	0.070	
76	संतोष पिता रामनाथ यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	255	0.410	0.410	
77	कनई पिता शिवलाल मक्खोबाई बेबा शिवलाल पता सा.कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	258/1	1.150	1.150	
78	कपिल कुमार ना० वा० बल्द वली संतोष पिता रामनाथ पता सा० भूमि स्वामी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	258/2	0.400	0.400	
79	भानुप्रताप अनंतसिंग पिता नथूसिंग अनंतरा पुत्री नथूसिंग बडी बहू जोजे शरनसिंग पता नि.कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	259	0.290	0.290	
80	विनोदकुमार पिता बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	267/1	1.080	1.080	
81	अशोककुमार पिता बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	267/2	1.080	1.080	
82	मोहनबाई पि.बालकिशन पति बाबूलाल यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	269	0.070	0.070	
83	सुरेशकुमार पिता बाबूलाल पता सा.पगारा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	271	0.230	0.230	
			272	0.030	0.030	

84	श्रीबाई पति प्रेमनारायण सुमनबाई बेबा संतोष मुकेश कृष्णकान्त पिता प्रेमनारायण यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	273/1	0.080	0.080	
85	प्रेमनारायण बल्द खिलानसीग यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	273/2	0.070	0.070	
86	मोती पिता परमू शिबूपिता अमरसीग करतार अमरसीग पितादुन्डा पिता मोहनललिया भूमि स्वामी रम्भुबाई प्रेमबाई पुत्रीमोहनललिया सजलीबहु, बेवा मोहनललिया पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	274	0.290	0.290	
87	कल्याण पिता रमन कल्याण ताि दुरगा मोती पिता अमरसीग बबलू पिता गोरे पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	282	2.110	2.110	
88	प्रमू फूलसीग छोटे रामलाल पिता हल्कू सियारानी बेबा हल्कू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	283	1.200	1.200	
89	बाबूलाल पिता गनपत पता सा.पगारा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	284	0.920	0.920	
कुल :-			158	92.150	92.150	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बंडा में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बंडा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 4253-भू-अर्जन-2019

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जून 2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय बल्लभ मवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- मोघर प0ह0न-31 ब.न.-236 रा.नि.मं.-चांद	रकबा- 01.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 18 एल माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशनी जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन दिये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4254-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत 'सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- परसगांवसर्सा प0ह0न-32 ब.न.-288 रा.नि.म.-चांद	रकबा- 02.362 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 11 एल माईनर तथा 12 एल माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4255-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- नौलाशिर प0ह0न-32 ब.न.-146 रा.नि.मं.-चांद	रकबा- 0.812 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4256-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- निशानजानूजी प0ह0न-49 ब.न.-150 रा.नि.म.-चांद	रकबा- 0.462 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4257-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- हिवराजैसिंग प0ह0न-41 ब.न.-324 रा.नि.म.-चांद	रकबा- 0.125 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बाध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4258-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- नीलकंठी कलां प0ह0न-32/27 ब.न.-151 रा.नि.मं.-चांद	रकबा- 02.650 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4259-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- मुडियाखेडा प0ह0न-90/32 ब.न.-230 रा.नि.मं.-चांद	रकबा- 01.112 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 14 एल माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4260-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- खापाबिहारी प0ह0न-31 ब.न.-44 रा.नि.मं.-चांद	रकबा- 0.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4261-भू-अर्जन-2019

क्योंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एमपी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- बम्हनीतुरा प0ह0न-48 ब.न.-112 रा.नि.म.-चांद	रकबा- 04.925 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 13 एल माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल सभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के सम्मक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4262-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत 'सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।' अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- नीलकंठी खुर्द 40ह0न-28 ब.न.-152 रा.नि.म.-चांद	रकबा- 02.781 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4263-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एमपी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- गोहरगांव पोस्ट-31 ब.न.-68 रा.नि.मं.-चांद	रकबा- 01.011 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 17 एल माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4264-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- चांद प0ह0न-30/27 ब.न.-80 रा.नि.मं.-चांद	रकबा- 01.140 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 18 एल माईनर तथा सब माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4265-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- डीमरमेटा प0ह0न-30 ब.न.-114 रा.नि.म.-चांद	रकबा- 0.375 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 15 एल माईनर तथा सब माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के सम्क्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4266-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एमपी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- गुमगांव प0ह0न-31 ब.न.-64 रा.नि.मं.-चांद	रकबा- 01.376 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 19 एल माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जिला राजगढ़

क्र. 1018-भू-अर्जन-2019

राजगढ़, दिनांक 27 जून 2019

अधिसूचना

पूरक - प्रकरण (धारा 19)

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूँकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - हरिपुरा		तहसील - जीरापुर	जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा	पूरक प्रकरण में अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	14.233	9.697
	योग	14.233	9.697

अनुसूची (2)

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	पूरक प्रकरण में भूमि का अर्जित रकबा
1	2	3	6	7
1	गोरीलाल आ. गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2	2.000	0.950
	योग		2.000	0.950
2	नाथूलाल आ. कवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/1/3/1	1.757	0.935
	योग		1.757	0.935

3	पूरसिंह मोतीलाल देवजी मानसिंह आ. कंवरलाल बदनबाई बेवा कंवरलाल जाति	103/2/1	2.023	1.514
	योग		2.023	1.514
4	पूरसिंह आ. कंवर लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/2/2	1.188	0.768
	योग		1.188	0.768
5	जगन्नाथ बदेसिंह आ. मोती जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/7	0.506	0.206
	योग		0.506	0.206
6	रामसिंह पिता भगवानसिंह कालुसिंह पिता बल्देवसिंह जाति गुर्जर ग्राम भूमि स्वामी	4/1/3/2	1.700	1.350
	योग		1.700	1.350
7	शिवसिंह आ.भीमा जाति गुर्जर ग्राम भूमि स्वामी	103/2/4	1.012	1.012
	योग		1.012	1.012
8	पूरसिंह आ. कंवरलाल जाति गुर्जर ग्राम भूमि स्वामी	106	0.835	0.400
	योग		0.835	0.400
9	जगन्नाथ बदेसिंह आ. मोती ग्राम भूमि स्वामी	103/8	2.086	1.436
	योग		2.086	1.436
10	शिवनारायण मांगीलाल पिता बापुलाल जाति गुर्जर ग्राम भूमि स्वामी	103/6	1.126	1.126
	योग		1.126	1.126
			14.233	9.697

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 1124-प्रवा.-2019

राजगढ़, दिनांक 29 जून 2019

-: अनुसूची :-

क्रमांक /भू-अर्जन/2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक/अ-82/..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में खोखरिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित निजी भूमि तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ की ग्राम सेमलाबेह के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि खोखरिया तालाब का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है एवं इस हेतु भूमि का अर्जन किया जा रहा है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची (1) :-

खोखरिया तालाब तहसील खिलचीपुर के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित निजी भूमि

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		कुल सर्वे नं.	कुल रकबा	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सेमलाबेह	21	5.585	5.225
कुलयोग :-		21	5.585	5.225

-: अनुसूची (2) :-

खोखरिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित निजी भूमि :- ग्राम सेमलाबेह

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
				कुल भूमि
1	2	3	4	5
1	अमरसिंह, पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/1	0.147	0.147
		48/1	0.084	0.084
		98/31/1	0.241	0.121
योग		3	0.472	0.352
2	बापूलाल पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/2	0.147	0.147
		48/2	0.084	0.084
		48/3	0.083	0.083
		50/2	0.222	0.222
		98/31/2	0.240	0.120
योग		5	0.776	0.656
3	कालुसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/3	0.147	0.147
		98/31/3	0.240	0.120
योग		2	0.387	0.267
4	शांताबाई पति प्रभूलाल जाति भील पता निवासी ग्राम हरजीपुरा भूमि स्वामी	50/1	0.223	0.223
		50/3	0.223	0.223
योग		2	0.446	0.446

स.क्र.-	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
				कुल भूमि
1	2	3	4	5
5	बीरमसिंह पिता गंगाराम जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55 56/2	0.190 0.063	0.190 0.063
	योग	2	0.253	0.253
6	गंगाराम पिता गुलाब जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56/1	0.670	0.670
	योग	1	0.670	0.670
7	पूरीबाई पति मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	193/47 211/47/2	0.267 0.455	0.267 0.455
	योग	2	0.722	0.722
8	भगवानसिंह पिता लक्ष्मण, जतनबाई बेवा लक्ष्मण जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	152/47 212/47 213/47	0.543 0.150 0.166	0.543 0.150 0.166
	योग	3	0.859	0.859
9	भर्वरलाल पिता मांगीलाल जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	31/2	1.000	1.000
	योग	1	1.000	1.000
	कुलयोग ग्राम सेमलाबेह :-	21	5.585	5.225

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1175-76

राजगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2019

प्रारूप धारा -25

(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013)
राजगढ़ दिनांक... 02/07/19

:- अनुसूची :-

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2015-16 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। इस आशय की धारा -19 अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 06.04.2018 को कराया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा-19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। किन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा बिक्री छोट एवं गार्ड लाईन की समय पर प्राप्ती नहीं होने के कारण इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवाई पारित नहीं किया जा सकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवाई पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

अनुसूची(1)

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० मे	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	नरसिंहगढ़	बोडा, ढबला, पनवाडी कण्डारा कोटरी, पीपल्याबीरम एवं कोटरीकला	0.463	बोडा-बोरखेडा मार्ग निर्माण हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राज्य नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 23-7/2019/18-6 :- मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (क्रमांक 41 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-24(4)-83-बत्तीस-एक, जो 7 सितम्बर 1989 को प्रकाशित हुई थी, की निरन्तरता में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, शैक्षणिक, धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए भारत गणराज्य के अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड लोक न्यासों के स्वामित्व के मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी स्थान को उक्त अधिनियम के समस्त उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

2/ उक्त छूट का प्रभाव वर्तमान में विचाराधीन समस्त प्रकरणों पर होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ-23-07/2019/18-5 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की अधिसूचना क्रमांक एफ-23/07/2019/18-6 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 12th July 2018

F. No. 23-7/2019/18-6 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961 (No. 41 of 1961) and in continuation of this department's Notification No. F-24-(4)-83-XXXII-I which was published on 7th September, 1989, the State Government, hereby, exempts any accommodation situated in the State of Madhya Pradesh owned by the public trusts registered in other states of the republic of India for the educational, religious or charitable purposes, from all the provisions of the said Act.

2/ The said exemption shall be applicable to all the cases which are under consideration in present.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 1 क्र. 1562-भू-अर्जन

राजगढ़, दिनांक 12 जुलाई 2019

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम कोटरा के लिए एफ.टी.एल तक डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम कोटरा

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	कालूराम पिता घीसालाल जाति नाई पता नि. ग्राम भू स्वामी	148/1	0.829	0.000	0.100	0.100
	योग	1	0.829	0.000	0.100	0.100
2	गोकुलप्रसाद पुत्र कोदीलाल जाति नाथ पता नि. ग्राम भू स्वामी	148/2	1.738	1.543	0.000	1.543
	योग	1	1.738	1.543	0.000	1.543
3	हरिसिंह पिता उंकार जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भू स्वामी	148/3	0.391	0.000	0.391	0.391
		148/4	1.265	0.000	0.485	0.485
	योग	2	1.656	0.000	0.876	0.876
4	लखनलाल पुत्र नारानप्रसाद जाति नाई पता नि. ग्राम भू स्वामी	148/5/1	0.759	0.000	0.100	0.100
	योग	1	0.759	0.000	0.100	0.100
5	भागीरथ पुत्र छीतर जाति नाई पता नि. ग्राम भू स्वामी	148/5/2	1.265	0.000	0.170	0.170
		148/5/4	0.202	0.000	0.202	0.202
	योग	2	1.467	0.000	0.372	0.372
6	महेशकुमार पुत्र नारानप्रसाद जाति नाई पता नि. ग्राम भू स्वामी	148/5/3	0.506	0.000	0.506	0.506
		148/5/5	0.455	0.000	0.455	0.455
	योग	2	0.961	0.000	0.961	0.961
7	राजेन्द्रकुमार पिता भागीरथ जाति नाई पता नि. ग्राम भू स्वामी	148/6	1.012	0.000	1.012	1.012
	योग	1	1.012	0.000	1.012	1.012
8	हेमराज, दिपसिंह पिता कैलाश, मेवाबाई बेवा कैलाश जाति काछी पता नि. ग्राम भू स्वामी	150/1	0.098	0.000	0.098	0.098
		154/2	0.564	0.000	0.564	0.564
	योग	2	0.662	0.000	0.662	0.662
9	मूलचन्द पिता भवरलाल जाति काछी पता नि. ग्राम भू स्वामी	150/2	0.661	0.000	0.661	0.661
	योग	1	0.661	0.000	0.661	0.661
10	भारतसिंह पिता भवरलाल जाति काछी पता नि. ग्राम भू स्वामी	154/1	0.662	0.662	0.000	0.662
	योग	1	0.662	0.662	0.000	0.662
	महायोग	14	10.407	2.205	4.744	6.949

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 706-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019

रीवा, दिनांक 17 जुलाई 2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराज नगर	कुआं	8.000 हे०	कार्यपालन यंत्री, पक्का बौध संभाग क्रमांक -3 देवलौद, जिला शहडोल (म०प्र०)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म०प्र० शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता

पत्र क्र. 708-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	देवरावर	1.500 हे०	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक -3 देवलौद, जिला शहडोल (म०प्र०)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म०प्र० शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 686-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

(क) जिला :- रीवा
 (ख) तहसील :- सेमरिया
 (ग) ग्राम :- पिपराछा
 (घ) क्षेत्रफल :- 1.736 हेक्टेयर

स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में		स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि			निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	1	0.019	-	18	112	0.036	-
2	5	0.030	-	19	113	0.099	-
3	6	0.134	-	20	115	0.045	-
4	7	0.039	-	21	116	0.015	-
5	8	0.091	-	22	117	0.002	-
6	10	0.072	-	23	121	0.012	-
7	11	0.055	-		शा0 नं. 122		
8	65	-	0.011	24	124	0.090	-
9	68	0.056	-	25	125	0.044	-
10	69	0.048	-	26	133	0.070	-
11	70	0.064	-	27	134	0.069	-
12	72	0.050	-	28	136	0.040	-
13	73	0.056	-	29	137	0.022	-
14	74	0.231	-	30	138	0.122	-
15	75	0.025	-	31	167	-	0.017
16	87	0.065	-		कुल योग:-	1.708 हे0	0.028 हे0
17	89	0.007	-		महायोग:-	1.736 हे0	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 688-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

(क) जिला :- सतना
 (ख) तहसील :- रघुराज नगर
 (ग) ग्राम :- कुआं
 (घ) क्षेत्रफल :- 3.847 हेक्टेयर

स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में		स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि			निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	297	0.147	-	22	363	0.232	-
2	299	0.112	-	23	364	0.154	-
3	300	0.133	-	24	402	0.036	-
4	304	0.032	-	25	403	0.089	-
5	306	0.093	-	26	403/1583	0.224	-
6	316	-	0.019	27	404	0.046	-
7	324	0.054	-	28	405	0.294	-
8	326	0.323	-	29	406	0.120	-
9	334	0.051	-	30	409	0.036	-
10	335	0.222	-	31	420	-	0.038
11	341	0.058	-	32	421	0.190	-
12	343	0.026	-	33	422	0.240	-
13	355	0.082	-	34	423	0.080	-
14	356	0.003	-	35	424	0.141	-
15	357	0.038	-	36	426	0.002	-
16	358	0.069	-	37	427	0.016	-
17	359	0.026	-	38	438	0.042	-
18	360	0.028	-				
19	360/1618	0.026	-				
20	361	0.026	-		कुल योग:-	3.790 हे0	0.057 हे0
21	362	0.299	-		महायोग:-	3.847 हे0	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 690-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

(क) जिला :-	सतना
(ख) तहसील :-	बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम :-	नगौरा
(घ) क्षेत्रफल :-	1.070 हेक्टेयर

स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	360	0.248	—
2	363	0.140	—
3	391	0.152	—
4	392	0.132	—
5	393	0.072	—
6	394	0.076	—
7	395	0.056	—
8	399	0.120	—
9	400	0.072	—
10	402	0.002	—
	कुल योग:-	1.070 हे0	0.000 हे0
	महायोग:-	1.070 हे0	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवों शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, सीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 692-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची**भूमि का वर्णन :-**

(क) जिला :-	सतना
(ख) तहसील :-	बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम :-	महुटा
(घ) क्षेत्रफल :-	0.895 हेक्टेयर

स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि
1.	3	0.123	-
2.	4	0.067	-
3.	16	0.274	-
4.	19	0.007	-
5.	20	0.045	-
6.	22	0.275	-
7.	27/3	0.104	-
	कुल योग :-	0.895 हे0	0.000 हे0
	महायोग :-	0.895 हे0	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवों शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 694-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची**भूमि का वर्णन :-**

(क) जिला :-	सतना
(ख) तहसील :-	बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम :-	परसौजा कला
(घ) क्षेत्रफल :-	0.282 हेक्टेयर

स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	44	0.208	-
2	45	0.074	-
	कुल योग:-	0.282 हे0	0.000 हे0
	महायोग:-	0.282 हे0	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवों शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 696-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

(क) जिला :- सतना
 (ख) तहसील :- बिरसिंहपुर
 (ग) ग्राम :- मेहुती
 (घ) क्षेत्रफल :- 10.958 हेक्टेयर

स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में		स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि			निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	963	0.086	-	40	1556	0.060	-
2	968	-	0.088	41	1560	0.043	-
3	969	-	0.025	42	1561	0.021	-
4	970	0.015	-	43	1562	0.029	-
5	971	0.293	-	44	1844	0.058	-
6	976	0.739	-	45	1845	0.006	-
7	1095	0.139	-	46	1850	0.010	-
8	1097	0.038	-	47	1851	0.077	-
9	1098	0.034	-	48	1853	0.138	-
10	1109	0.199	-	49	1854	0.064	-
11	1113	0.207	-	50	1855	0.002	-
12	1117	0.086	-	51	1856	0.055	-
13	1118	0.060	-	52	1981	0.032	-
14	1354	0.008	-	53	1983	0.178	-
15	1356	0.026	-	54	1984	0.007	-
16	1357	0.029	-	55	1985	0.072	-
17	1358	0.048	-	56	2027	0.039	-
18	1359	0.024	-	57	2028	0.061	-
19	1360	0.060	-	58	2029	0.041	-
20	1362	0.149	-	59	2030	0.144	-
21	1363	0.130	-	60	2031	0.084	-
22	1432	0.070	-	61	2032	0.074	-
23	1433	-	0.035	62	2033	0.034	-
24	1434	0.034	-	63	2034	0.035	-
25	1435	0.030	-	64	3028	0.132	-
26	1436	0.115	-	65	3029	0.156	-
27	1437	0.006	-	66	3031	0.144	-
28	1493	-	0.010	67	3032	0.209	-
29	1536	0.048	-	68	3055	0.008	-
30	1541	0.067	-	69	3056	0.048	-
31	1542	0.067	-	70	3058	0.082	-
32	1543	0.161	-	71	3059	0.070	-
33	1544	0.014	-	72	3060	0.060	-
34	1545	0.031	-	73	38	0.094	-
35	1546	0.065	-	74	39	0.108	-
36	1551	0.005	-	75	48	0.018	-
37	1552	0.118	-	76	49	0.255	-
38	1553	0.041	-	77	50	0.147	-
39	1555	0.044	-	78	51	0.018	-

79	53	0.092	--	112	339	0.230	--
80	57	0.004	--	113	669	0.049	--
81	58	0.030	--	114	670	0.022	--
82	59	0.088	--	115	671	0.074	--
83	60	0.026	--	116	672	0.062	--
84	61	0.043	--	117	673	0.072	--
85	63	--	0.014	118	674	0.049	--
86	64	0.108	--	119	680	0.041	--
87	65	0.199	--	120	681	0.101	--
88	117	0.186	--	121	685	0.214	--
89	118	0.116	--	122	686	0.034	--
90	119	0.072	--	123	692	0.106	--
91	120	0.125	--	124	693	0.110	--
92	121	0.091	--	125	747	0.049	--
93	122	0.010	--	126	748	0.007	--
94	223	0.036	--	127	749	0.049	--
95	225	0.111	--	128	760		0.019
96	226	0.156	--	129	764	0.035	--
97	220	0.067	--	130	772	0.218	--
98	221	0.058	--	131	773	0.061	--
99	227	0.029	--	132	2524	0.036	--
100	254	0.085	--	133	2525	0.044	--
101	255	0.064	--	134	2526	0.091	--
102	256	0.074	--	135	2527	0.015	--
103	257	0.074	--	136	2528	0.014	--
104	258	0.034	--	137	2541	0.077	--
105	259	0.144	--	138	2542	0.147	--
106	330	0.034	--	139	2543	0.006	--
107	331	0.031	--	140	2545	0.011	--
108	332	0.031	--	141	2546	0.097	--
109	333	0.048	--		कुल योग--	10.767 हे०	0.191 हे०
110	334	0.049	--		महायोग--		10.958 हे०
111	335	0.132	--				

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 698-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

(क) जिला :-	सतना
(ख) तहसील :-	कोटर
(ग) ग्राम :-	चूंदकला
(घ) क्षेत्रफल :-	2.769 हेक्टेयर

स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में		स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि			निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	4/1	0.048	-	22	189	0.216	-
2	4/2	0.048	-	23	197	0.086	-
3	5	0.100	-	24	198	0.034	-
4	14/1	0.086	-	25	199	0.033	-
5	15	0.072	-	26	200	0.106	-
6	16	0.043	-	27	201/1	0.037	-
7	18	0.123	-	28	201/2	0.010	-
8	21	0.014	-	29	202	0.058	-
9	22	0.084	-	30	203	0.163	-
10	77	0.108	-	31	204	0.098	-
11	78	0.022	-	32	207	0.016	-
12	79	0.080	-	33	209/1	0.058	-
13	80	0.031	-	34	209/2	0.045	-
14	81/1	0.036	-	35	210	0.051	-
15	82	0.072	-	36	211	0.045	-
16	88	0.043	-	37	212	0.058	-
17	179	0.177	-	38	213/1/ख	0.007	-
18	180	-	0.016	39	213/2	0.083	-
19	183	0.110	-	40	258	0.048	-
20	185	0.118	-		कुल योग:-	2.753 हे0	0.016 हे0
21	188	0.086	-		महायोग:-	2.769 हे0	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवों शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 700-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

(क) जिला :-	सतना
(ख) तहसील :-	कोटर
(ग) ग्राम :-	सेमरी
(घ) क्षेत्रफल :-	3.511 हेक्टेयर

स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में		स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि			निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	3/1	0.032	-	24	318	0.041	-
2	4	0.108	-	25	319	0.019	-
3	5	0.319	-	26	320	0.019	-
4	10	0.242	-	27	326	0.040	-
5	12	0.012	-	28	327	0.040	-
6	13	0.078	-	29	332	0.016	-
7	16	0.053	-	30	324	0.028	-
8	17	0.038	-	31	346	0.040	-
9	26	0.120	-	32	351	0.132	-
10	27	0.014	-	33	352	-	0.014
11	37	0.126	-	34	353	0.053	-
12	40	0.010	-	35	354	0.134	-
13	47	0.008	-	36	380	0.120	-
14	48	0.154	-	37	381	0.045	-
15	60	0.173	-	38	382	0.108	-
16	61	0.006	-	39	383	0.144	-
17	62	0.137	-	40	384	0.019	-
18	63	0.055	-	41	385	0.029	-
19	65	0.014	-	42	389	0.149	-
20	71	0.168	-	43	390	0.321	-
21	72	0.044	-				
22	76	0.041	-		कुल योग:-	3.497 हे0	0.014 हे0
23	77	0.048	-		महायोग:-		3.511 हे0

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 702-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

(क) जिला :-	सतना
(ख) तहसील :-	कोटर
(ग) ग्राम :-	कोटर
(घ) क्षेत्रफल :-	0.992 हेक्टेयर

स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	40	0.050	—
2	41	0.067	—
3	45	0.163	—
4	49	0.379	—
5	3285	0.134	—
6	3287	0.036	—
7	3297	0.163	—
	कुल योग:-	0.992 हे0	0.000 हे0
	महायोग:-	0.992 हे0	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है — बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, सीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 704-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

(क) जिला :-	सतना
(ख) तहसील :-	कोटर
(ग) ग्राम :-	फरहद
(घ) क्षेत्रफल :-	2.125 हेक्टेयर

स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में		स0क्र0	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे0 में	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि			निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	78	0.011	-	22	155	0.096	-
2	82	0.034	-	23	95/373	0.086	-
3	83	0.019	-	24	128	0.027	-
4	84	0.019	-	25	209	0.031	-
5	86	-	0.022	26	210	0.086	-
6	87	0.053	-	27	211	-	0.116
7	89	0.039	-	28	212/2	0.126	-
8	91	0.031	-	29	278/1	0.005	-
9	92	0.024	-	30	278/2	0.005	-
10	93	0.029	-	31	279	0.010	-
11	98	0.091	-	32	282/1/2	0.012	-
12	108	0.038	-	33	282/2	0.073	-
13	110	0.048	-	34	283	0.056	-
14	111	0.082	-	35	321/1	0.061	-
15	114	0.054	-	36	321/2	0.002	-
16	116	0.067	-	37	334	0.050	-
17	117	0.024	-	38	340	0.010	-
18	119	0.101	-	39	341	0.027	-
19	120	0.072	-	40	344	0.095	-
20	121	0.159	-		कुल योग:-	1.987 हे0	0.138 हे0
21	122	0.134	-		महायोग:-	2.125 हे0	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवों शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 710-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इनके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यक है :-

॥ अनुसूची ॥

भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला :- रीवा
 (ख) तहसील :- हुजूर
 (ग) ग्राम :- मकरवट
 (घ) क्षेत्रफल :- 0.016 हे.

स.क्र.	खसरा नंबर	अर्जित रकवा है.	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि
01	476	0.016	—
	कुल योग	0.016	—

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- चर्चाई वितरक नहर की उपशाखा रहट सबमाइनर क्र.3 छूटे हुए रकवे में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), जिला-शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 12 जून 2019

क्र. दस-भू-अर्जन-भूमि क्रय-अनु.-2019-3123.—एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बाणसागर परियोजना पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलोद, जिला शहडोल, म. प्र. के अन्तर्गत दांयी तट नहर प्रणाली के धरतिहा माईनर नहर की सब माईनर नहर नांदो के निर्माण से प्रभावित ग्राम नांदो, तहसील-ब्यौहारी, जिला शहडोल, म. प्र. स्थित निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि, आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत बाणसागर परियोजना के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. संबंधित भूमिस्वामी द्वारा अपनी सहमति दी गई है.

अतः यदि किसी व्यक्ति को अनुसूची में दर्शित भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा:—

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	नांदों	हनुमान प्रसाद शुक्ला पिता भैया लाल, ग्राम नांदों.	94/1	0.112

योग . . 0.112

ललित दाहिमा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 1233-भू-अर्जन-2019

राजगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2019

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में शिवपुरा जलाशय तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ शिवपुरा जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)		
शिवपुरा जलाशय		तहसील - जीरापुर
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.मै)
	निजी भूमि शिवपुरा जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	
1	ग्राम-शिवपुरा की भूमि	9.865
2	ग्राम-आगरिया की भूमि	14.583
	योग	24.448

(1) शिवपुरा जलाशय में ग्राम आगरिया की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	चन्द्रपालसिंह शिवराजसिंह भूपेन्द्रसिंह कमलसिंह जोरसिंह पिता केसरसिंह भंवरकुवर वि. कैसरसिंह जाति राजपूत	229/1/2	0.394	0.300
		404/1	0.103	0.103
		405/2	0.283	0.283
	योग	3	0.780	0.686
2	गोपालसिंह रामपालसिंह पिता गोर्वधनसिंह जाति राजपूत	229/2	0.787	0.200
		399/3	0.121	0.121
		400	0.405	0.405
	योग	3	1.313	0.726
3	सुल्तानसिंह पिता नरेभेसिंह जाति राजपूत	378	0.934	0.934
		379	0.162	0.162
		380	0.299	0.299
		381	0.947	0.947

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
		382	0.295	0.295
		383	0.146	0.146
	योग	6	2.783	2.783
4	तरवरसिंह प्रेमसिंह अनोपसिंह पिता छगनसिंह चन्दरबाई बैवा छगनसिंह विकमसिंह नन्दसिंह पिता इन्दरसिंह रमेशबाई बैवा इन्दरसिंह सोम्यासिंह नारायणसिंह मनोहरसिंह पिता अर्जुनसिंह सूरजकुवरबाई बैवा अर्जुनसिंह जाति राजपूत	386	0.482	0.482
		397/2 398/4	0.720	0.300
	योग	2	1.202	0.782
5	धीरपसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत	387/1 388/2	0.130	0.130
	योग	1	0.130	0.130
6	भगवानसिंह पिता पदमसिंह श्रंगारबाई वि. पदमसिंह जाति राजपूत	387/2	0.129	0.129
	योग	1	0.129	0.129
7	कल्याणसिंह राजेन्द्रसिंह कृष्णपालसिंह पिता जीवनसिंह सुगनकुवर वि. जीवनसिंह जाति राजपूत	388/1	0.130	0.130
	योग	1	0.130	0.130
8	सुरेश पिता मोहनलाल जाति दर्जी	389/1	0.070	0.070
		392/3	0.113	0.113
		394/1	0.006	0.006
		395/4	0.103	0.103
		396/1	0.058	0.058
		377/4	0.076	0.076
	योग	6	0.426	0.426
9	रामबाबू पिता मोहनलाल जाति दर्जी	389/2	0.062	0.062
		392/2	0.047	0.047
		395/1	0.154	0.154
		396/3	0.054	0.054
		377/2	0.076	0.076
	योग	5	0.393	0.393
10	मनोहरलाल पिता नरसगलाल जाति दांगी	389/3	0.095	0.095
		392/1	0.067	0.067
		394/2	0.010	0.010
		394/3	0.016	0.016
		395/2	0.154	0.154

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
		395/3	0.204	0.204
		396/2	0.062	0.062
		396/4	0.061	0.061
		377/1	0.076	0.076
		377/3	0.076	0.076
	योग	10	0.821	0.821
11	कालूसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत	401	0.142	0.142
		402	0.117	0.117
	योग	2	0.259	0.259
12	भगवानसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत	399/2	0.115	0.115
	योग	1	0.115	0.115
13	रघूरजसिंह पिता जसवन्तसिंह अनूपकुंवर बैवा जसवन्तसिंह जाति राजपूत	404/2	0.103	0.103
		405/3	0.283	0.283
		417	0.304	0.304
	योग	3	0.690	0.690
14	बालूसिंह पिता नाराशनसिंह जाति राजपूत	405/1	0.283	0.283
		412/1	0.017	0.017
		413/1	0.011	0.011
		414/1	0.045	0.045
		416/2	0.018	0.018
	योग	5	0.374	0.374
15	सीताराम पिता बंशीलाल जाति दांगी	406/1 408/1	0.512	0.512
	योग	1	0.512	0.512
16	मांगीलाल पिता शिवनारायण जाति दांगी	406/2 407	0.148	0.148
		408/2/1	0.182	0.182
	योग	2	0.330	0.330
17	रामबाबू पिता शिवनारायण जाति दांगी	408/2/2	0.183	0.183
	योग	1	0.183	0.183
18	नन्दा पिता लछमन जाति दर्जी	412/2	0.018	0.018
		414/2	0.098	0.098
		416/5	0.039	0.039
	योग	3	0.155	0.155
19	मोहनलाल पिता लछमन जाति दर्जी	412/3	0.018	0.018
		414/3	0.071	0.071
		416/4	0.018	0.018
	योग	3	0.107	0.107

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
20	नर्मदाबाई बैवा ग्यारसीराम गोकुल रामप्रसाद कलाश गुडडू पिता ग्यारसीराम रोडीबाई संतोषबाई पुत्रीया ग्यारसीराम जाति दर्जी	413/2	0.382	0.382
		416/9	0.128	0.050
		416/1	0.119	0.119
	योग	3	0.629	0.551
21	मांगीलाल पिता गंगाराम जाति दांगी	430/1	0.075	0.075
		योग	1	0.075
22	बापूलाल पिता गंगाराम जाति दांगी	430/2	0.075	0.075
		योग	1	0.075
23	मांगीलाल पिता धीसालाल जाति दांगी	431	0.190	0.190
		योग	1	0.190
24	गोकूल रतनलाल पिता कनीराम भागीरथ कालूराम नाथूलाल पिता पूरा फूलसिंह भारमल बापूलाल पिता हिरा जाति दांगी	432	0.182	0.182
		योग	1	0.182
25	जोरावरकुंवर बैवा मानसिंह जाति राजपूत	438/1	0.157	0.157
		योग	1	0.157
26	गजराजसिंह मेहरवानसिंह पिता गुलाबसिंह चतरकुंवर वि. गोविन्दसिंह देशराजसिंह देवीसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत	438/2	0.090	0.090
		439	0.202	0.202
		206/6	0.202	0.102
	योग	3	0.494	0.394
27	भगवतसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत	440/1/1	0.214	0.214
		योग	1	0.214
28	बजरंगसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत	440/1/2	0.214	0.214
		योग	1	0.214
29	मांगीलाल पिता दयाराम जाति बलाई	303/1/2	0.947	0.400
		योग	1	0.400
30	प्रभूलाल पिता पुरा जाति बलाई	303/1/5	1.000	0.500
		योग	1	0.500
31	भेरू पिता अमरा चम्पीबाई पति भेरू जाति चमार	376/1/1/1	1.012	0.500
		योग	1	0.500
32	कनीराम पिता भेरू लीलाबाई पति कनीराम जाति चमार	376/1/1/2	1.012	0.500
		योग	1	0.500

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
33	लक्ष्मण पिता अमरा सरदारबाई पति अमरा जाति चमार	376/1/1/3	1.012	0.200
	योग	1	1.012	0.200
34	कंवरलाल पिता अमरा केसरबाई पति कंवरलाल जाति चमार	376/1/1/4	1.012	0.700
	योग	1	1.012	0.700
	ग्राम आगरिया योग		19.057	14.583
	ग्राम शिवपुरा			
35	रामलाल पिता जेराम जाति लोधा	8/10 106 101 102 103 104 105	0.206 1.530	0.206 1.530
	योग	2	1.736	1.736
36	भेरूलाल पिता उदा नाथू पिता रामा जाति लोधा	112/1 113/1 114/1 115/1 116/1 117/1	0.430	0.430
	योग	1	0.430	0.430
37	उंकारलाल पिता रामा जाति लोधा	112/2 113/2 114/2 115/2 116/2 117/2	0.468	0.468
	योग	1	0.468	0.468
38	शिवलाल पिता उदा जाति लोधा	112/3 113/3 114/3 115/3 116/3 117/3	0.424	0.424
	योग	1	0.424	0.424

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
39	कंवरलाल पिता उदा भंवरीबाई वि. उदा जाति लोधा	112/4 113/4 114/4 115/4 116/4 117/4	0.345	0.345
	योग	1	0.345	0.345
40	दर्यावसिंह चम्मालाल मथरालाल छीतर पिता देवीलाल जाति लोधा	119/2 119/6	0.530	0.530
	योग	1	0.530	0.530
41	कनीराम पिता रामलाल जाति लोधा	119/1	0.100	0.100
	योग	1	0.100	0.100
42	पुरा पिता कंवरलाल जाति लोधा	119/4	0.250	0.250
	योग	1	0.250	0.250
43	जगन्नाथ पिता कंवरलाल जाति लोधा	119/5 119/3	0.220 0.050	0.220 0.050
	योग	2	0.270	0.270
44	कालूलाल पिता हिरालाल रामीबाई बैवा हिरालाल जाति लोधा	119/7	0.300	0.300
	योग	1	0.300	0.300
45	मांगीलाल पिता लाला जाति लोधा	119/8	0.400	0.400
	योग	1	0.400	0.400
46	देवीसिंह गेन्दीबाई गुलाबबाई पुरीबाई भूलीबाई पिता भेरु जाति लोधा	119/9 137	0.501 0.190	0.475 0.060
	योग	2	0.691	0.535
47	मांगीलाल प्रभूलाल पिता रामा जाति लोधा	140 141 142/1	0.089 0.081 0.250	0.089 0.081 0.250
	योग	3	0.420	0.420
48	मांगीबाई पति प्रभूलाल जाति लोधा	142/2 143	0.179 0.243	0.179 0.243
	योग	2	0.422	0.422
49	कालूलाल पिता हिरालाल रामीबाई वि. हिरालाल पुरा पिता धूला जाति लोधा	139/2 144	0.105 0.352	0.055 0.040
	योग	2	0.457	0.095
50	नन्दूबाई बैवा देवा जाति लोधा	110	0.421	0.421

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
		108/1/1	0.062	0.062
		122	0.761	0.078
		121	0.526	0.016
	योग	4	1.770	0.577
51	रुगनाथ पिता मोती जाति लोधा	111/1	0.213	0.213
		120/2	0.198	0.198
		108/2/1	0.078	0.078
	योग	3	0.489	0.489
52	मांगीलाल गंगाराम उंकार पिता देवा जाति लोधा	111/2	0.212	0.212
		108/2/2	0.404	0.348
	योग	2	0.616	0.56
53	कनीराम पिता किशन जाति लोधा	108/3/1	0.241	0.241
		120/1	0.198	0.198
	योग	2	0.439	0.439
54	दूधालाल पिता किशन जाति लोधा	108/1/2	0.202	0.202
		109	0.166	0.166
		126/2	0.263	0.263
	योग	3	0.631	0.631
55	परथीसिंह पिता किशन जाति लोधा	108/1/3	0.203	0.203
		108/3/2	0.241	0.241
	योग	2	0.444	0.444
	ग्राम शिवपुरा योग		11.632	9.865
	कुल योग		30.689	24.448

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.